COMPANIES 3

CCI orders probe against Google

Alleges unfair biz practices on Google Pay

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 9 November

he Competition Commission of India (CCI) on Monday ordered a detailed probe against internet giant Google for alleged unfair business practices with respect to Google Pay as well as Google Play's payment system.

Google Pay is a popular digital payments platform while Google Play is the app store on its Android ecosystem.

... the CCI is of the prima facie view that the Opposite Parties have contravened various provisions of Section 4 of the Act... These aspects warrant a detailed investigation," it said in a 39-page order.

The watchdog has ordered a detailed probe by its Director General (DG), which is the investigation arm, for alleged anti-competitive practices with respect to Google Pav.

Section 4 of the Competition Act pertains to abuse of dominant market position.

The CCI is of the prima facie view that the market for apps facilitating payment through the Unified Payments Interface (UPI) appears to be a distinct relevant market for the assessment of allegations in the present matter, the order said.

According to the regulator, "the said conduct of Google amounts to imposition of unfair and discriminatory condition, denial of market access for competing apps of Google Pay and leveraging on the part of Google, in terms of different provisions of Section 4(2) of the Act." On the issue of mandatory



use of Google Play's payment its billing system.

system for paid apps and in-app purchases (IAPs), the CCI said 'mandatory use of application store's payment system for paid apps and in-app purchases restricts the choice available to competitiveness the app developers to select a

payment processing system of their choice especially considering when Google charges a commission of 30 per cent (15 per cent in certain cases) for all app purchases and IAPs." Considering that Play is the

dominant source of downloading apps in the Android OS (90 per cent of the downloads) and its condition requiring use of application store's payment system for paid apps and IAPs, it appears that Google controls the significant volume of payments processed in this market, the order said.

"The resultant market power being enjoyed by Google due to its grip over Android ecosystem apparently resulted in 'allegedly' high commission fee of 30 per cent," it added.

Indian app developers have been voicing concerns over Google's move to charge 30 per cent commission on paid apps and IAPs. Many such developers have said that Google cannot force domestic app developers/owners to sell digital services by compulsory use of

offers on the same day for its

Presidente Getulio Vargas, or

Repar - as part of a rebidding

and Ultrapar delivered bids

that were too similar in value.

In September, both Raizen

Parana state refinery

sale process.

According to the CCI, it appears that such allegedly high fee would increase the cost of Google's competitors and thus might affect their vis-s-vis Google's own verticals.

Such a policy of the application store may disadvantage its competitors in the downstream markets, such as music streaming, e-books/audiobooks etc. If the application developers, in response, raise their subscription fees to offset these costs or remove/reduce premium/paid subscription

offers for users, it may affect user experience, cost and choice. Such conditions imposed by app stores limit the ability of the app developers to offer payment processing of their choice to the users for app purchases as well as IAPs ... the

Commission is of prima facie view that imposition of such condition is unfair in terms of Section 4(2)(a) of the Act," the regulator said.

The probe has been ordered against five entities -Alphabet, Google, Google Ireland, Google India, and Google India Digital Services.

In 2018, CCI had penalised Google for anti-competitive practices in the Indian market for online search.

Problem of plenty: Bidders get picky over NBFC assets

DEV CHATTERIEE Mumbai, 9 November

A large number of asset sales by stressed non-banking financial companies (NBFCs) including by Dewan Housing Finance, Reliance Capital, IL&FS, and Piramal's sale of its stake in Shriram Transport — has not only dragged down these assets' valuation, but has also flipped the market in buyers' favour.

Bidders say it's a problem of plenty and their bids for these assets will be conservative. "There is no question of paying any premium, considering the economic situation. The sale of assets is likely to be delayed by at least another year if the sellers want value," said a prospective bidder.

The bidders of DHFL books have made extremely conservative bids with banks not getting even 15 per cent of their

the revised offers are expected this week, lenders will have to provide for a huge sum as writeoff in DHFL. We do not expect bids to be extraordinary and will be still far below the liquidation value," said the banker. Barring Piramal. in most other cases, the sale is being

conducted by lenders after a default. Apart from the NBFCs' asset sales, YES Bank is also toying with the Bankers say idea of hiving off its there are too ₹32.000 crore of non- many fire performing asset book sales, dragging into a "bad bank" and valuations

is currently in talks down with EY on this. Several asset reconstruction firms have been sounded off about selling part of the book.

Bankers said the asset sales are getting affected as there are too many fire sales chasing "very little cash". "May be it's time to postpone the sale for the

next financial year as this year dues, said a banker. "Though has been a complete washout for M&As of NBFCs and financial assets," said the banker.

The bids for DHFL's books showed that bidders are looking at very specific books and are carefully evaluating assets. The sale of Reliance Capital's assets, including its stake sale in insurance ventures and mutual fund arms, is currently ongoing

and bidders are expected to submit their expression of interest by December 1. "The response may be muted as there are too many assets on

sale at the same time," said the banker.

Bankers said apart from stressed NBFCs, several large companies operating their NBFC arms are also looking to sell their books as NBFC debt is also included in group debt and impacts ratings.



HCL Corp sells HCL Tech shares worth Rs 390 cr to another promoter entity

HCL Corporation, a promoter of HCL Technologies, offloaded 4.58 million shares of the company for over₹390 crore to another promoter entity through an open market transaction. According to block deal data, HCL Corporation sold a total of 45,85,000 shares of HCLTechnologies at an average price of ₹852 per share.

WILLIAMSON FINANCIAL SERVICES LIMITED CIN : L67120AS1971PLC001358 Registered Office: Export Promotion Industrial Park, Plot No.1, Amingaon, North Guwahati - 781031, Assam Telephone: 033 2243 5391/93, 2210 1221, 2248 9434 /35 Fax:+91-33-2248 3683/8114/6824 E-mail: administrator@mcleodrussel.com, Website: www.williamsonfinancial.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2020

		3	months ende	əd	6 month	Year ended	
SI. No.	Particulars	30.09.2020	30.06.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019	31.03.2020
140.		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	0.47	-	927.74	0.47	1,968.71	681.30
2.	Net Profit / Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	76.90	-231.96	-2,297.98	-155.06	-3,439.30	-2,318.70
3.	Net Profit / Loss for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	76.90	-231.96	-2,297.98	-155.06	-3,439.30	-2,318.70
4.	Net Profit / Loss for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	76.90	-231.96	-2,297.98	-155.06	-3,439.30	-2,318.70
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / Loss for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	364.79	1,411.52	-1,440.92	1,776.31	-12,800.84	-16,355.86
6.	Paid-up Equity Share Capital: Face value: Rs 10/- per share	835.91	835.91	835.91	835.91	835.91	835.91
7.	Earnings / Loss per Equity Share (EPS) (Rs.) (not annualised) - Basic and Diluted	0.92	-2.77	-27.49	-1.85	-41.14	-27.74

Qualified Opinion expressed by the statutory auditors(if any)

Attention is drawn by the auditors in the following qualifications in the financial results of the company "The Company has defaulted in repayment of the obligations to its lenders and which is outstanding as on September 30, 2020 and Net Worth of the Company fully eroded which indicate material uncertainty exists that may cast a significant doubt on the Company's ability to continue as a Going Concern. The Company is in the process of business plan for the improvement and accordingly the financial statements of the Company

have been prepared on a "Going Concern" basis. (i) Interest of Rs 1,51,578 Thousand (as calculated by Management) has not been provided for interest expenses on the Term Loans and Other Loans for the half year ended 30th September, 2020

Interest income of Rs 47,329 Thousand (as calculated by Management) for the half year ended 30th September, 2020 not provided on loans given. As a result the Net Loss and Net Worth for the half year ended impacted by the above same amount.

(ii) Loans and Advances and Borrowings are subject to confirmation and reconciliation.

Note :

Place : Kolkata

Date : 9th November 2020

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the 1. SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at (www.bseindia.com)and also on the Company's website (www.willi amsonfinancial.in)
- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 9th November 2020. The Limited Review Report for the Quarter ended 30 September 2020, has been carried out by the Statutory Auditor, as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

By Order of the Board For Williamson Financial Services Limited Sd/

(Aditya Khaitan) Director DIN - 00023788

Essar aims to bid for **Petrobras refinery**

REUTERS SAO PAULO/RIO, 9 November

Brazil's Petroleo Brasileiro is set to receive binding offers on December 10 for its Rio Grande do Sul state refinery Refap, with Indian conglomerate Essar Group and local firms Raizen and Ultrapar Participacoes

Petrobras, Ultrapar and RaÃ-zen declined to comment. Essar did not among its potential bidders, immediately respond to a Reuters request on the people familiar with the

Advance Surfactants India Limited - In Liquidation NOTICE OF EXTENSION OF DATE FOR OF E-AUCTION

documents and EMD is now revised to Monday, 30th November, 2020.

information Document containing Terms and Conditions are available https://right2vote.in and also on www.kgsip.com For any clarifications Contact below Kishan Gopal Somani - Liquidato IBBI Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P00300/2017-18/10544 contact details

KG Somani Insolvency Professionals Private Limited Address: 3/15, 4th Floor, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002 Email id kgsomani.advance@gmail.com, Contact Number: 011-41426262, 011-23277677, 9310182010

ITC fast-tracks launches of products, beats previous high

Diversified conglomerate ITC has launched as many as 70 products in the non-cigarettes fast-moving consumer goods (FMCG) space cashing in on the changing dynamics of the pandemic-stricken consumer space, beating its previous high of 60 launches.

The 70 launches, which were made in the first half of the financial year, were mostly focused on hygiene, health & wellness, naturals and convenience, which were in high demand, as Covid-19 raged across the world. The number of launches exceeds what ITC had done in the whole of last financial year

ISHITA AYAN DUTT

his is to inform all that the E-Auction of Sale of Assets on Going Concern Basis of various units of M/s Advance Surfactants India Limited - In Liquidation on "As is where is basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis", and "No recourse basis" which was scheduled to be held on 11th & 12th November, 2020 has now been extended and would now be held on WEDNESDAY, 2nd DECEMBER for all the units together & THURSDAY. 3rd DECEMBER, 2020 for individual units respectively, and the Last date of submission of

All other terms & Conditions shall remain same and unchanged. The E-Auction Process

negotiations said.

All three firms have been pre-qualified for the binding phase for Refap refinery, also known as Alberto Pasqualini, the sources said.

Petrobras, as Brazil's state-controlled producer is known, will also receive

matter. The bids are part of Petrobras's plans to end its virtual monopoly in refining in Brazil and open one of the largest fuel markets to private competitors. Nine refining units are for sale, or about half of Brazil's refining capacity.

Zomato COO Gaurav Gupta steps down

To focus on firm's nutrition business PEERZADA ABRAR

Bengaluru, 9 November

Food delivery giant Zomato's Chief Operating Officer (COO) Gaurav Gupta is stepping down from his current role. Gupta, who was also elevated to the position of co-founder at Zomato last year, would now be focusing on launching the company's nutrition business.

"My journey at Zomato for the past 5 years has been one of the best rides one can ask for. It seems like a lifetime and in some sense, it feels like we are just getting started," said Gupta in an email to the employees.

"I will be vacating the COO position at Zomato. I was anyway not doing this role, and it will be great for all of us if we find someone better than me to do this role at Zomato.'

An alumnus of IIT-Delhi, Gupta said, "This business can potentially be a large value driver for Zomato in the future. I am very excited about the new capabilities we are building and the consumer industries and will share more details at the retail space.

right time.

Gupta had led multiple businesses at Zomato such as advertising sales, table reservations across India, West Asia, Australia and New Zealand, Southeast Asia, and Europe. He had also led the launch of the online food ordering business Kolkata

9th November, 2020

across key global markets. He led the company's successful subscription businesses, Zomato Gold. He had been instrumental in scaling Hyperpure to serve the largely undersupplied restaurant market in India with fresh produce.

Prior to joining Zomato, Gupta served as a senior principal with A T Kearney in

PRESSMAN

Extract of Unaudited Financial Results for the guarter and half year ended September 30, 2020

, ,			(₹ in lakh)
Particulars	Quarter Ended 30.09.2020	Half Year Ended 30.09.2020	Quarter Ended 30.09.2019
	Unaudited	Unaudited	Unaudited
Total income from operations	485.39	839.02	915.95
Net Profit for the period (before tax and exceptional item)	186.79	392.00	216.36
Net Profit for the period before tax (after exceptional item)	186.79	392.00	216.36
Net Profit for the period after tax (after exceptional item)	136.54	301.75	164.59
Total comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	136.04	301.00	164.39
Equity Share Capital	469.66	469.66	469.66
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		3475.21	
Earnings per share (of ₹ 2 each) Basic and Diluted (₹) (not annualised)	0.58	1.28	0.70

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half yearly Financial Results are available on the Stock Exchange's website (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and website of the company (www.pressmanadvertising.in).

> By order of the Board Dr Niren Suchanti Chairman & Managing Director DIN: 00909388

Pressman Advertising Limited

CIN: L74140WB1983PLC036495 Regd. Office: Pressman House, 10A Lee Road, Kolkata 700 020 Tel: 033 4031 0810/11, Fax: 033 4031 0813 Email: ir@pressmanindia.com, Website: www.pressmanadvertising.in

CONSOLIDATED NET REVENUE UP BY 19.68% in Q2*	29-2251482; V CON UP	Vebsite: www. NSOLIDATI PBT BY 210.10 in Q2*	%	CONS		os.com
			US FINANCI			
EXTRACT OF UNA FOR THE QUARTE						(Ŧ in inne)
		Quarter ende	4	Half Yea	r ended	(₹ in lacs) Year ended
Particulars	30-Sep-20	30-Jun-20	30-Sep-19	30-Sep-20	30-Sep-19	31-Mar-20
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	11,021.63	5,048.57	9,209.43	16,070.20	20,115.58	39,100.45
Profit/(Loss) before exceptional Items and tax	1,053.70	(915.63)	339.80	138.07	903.43	1,566.02
Exceptional items	-	-		•		(213.80)
Profit/(Loss) before tax	1,053.70	(915.63)	339.80	138.07	903.43	1,352.22
Net Profit/(Loss) after tax	1,000.15	(885.71)	300.58	114.44	760.42	1,219.96
Total Comprehensive income/(loss) for the period (Comprising profit after tax and other comprehensive income after tax)	1,203.95	(667.87)	84.85	536.08	9.43	182.73
Paid-up equity share capital (face value of ₹ 10.00 each)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56
Earning Per Share (of Rs. 10 each) (for the period - not annualised)						
Basic (₹)	8.10	(7.17)	2.44	0.93	6.16	9.88

talbros Automotive Components Ltd.

(CIN: L29199HR1956PLC033107)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2020

(7.17)

2.44

0.93

6.16

9.88

(₹ In lace)

8.10

	(Juarter ende	1	Half Yea	Year ended	
Particulars	30-Sep-20	30-Jun-20	30-Sep-19	30-Sep-20	30-Sep-19	31-Mar-20
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operation	11,021.63	5,048.57	9,329.43	16,070.20	20,235.58	39,340.45
Profit/(Loss) before exceptional Items and tax	770.47	(648.34)	246.22	122.13	613.35	1,017.95
Profit/(Loss) before tax	770.47	(648.34)	246.22	122.13	613.35	804.15
Net Profit/(Loss) after tax	716.92	(618.42)	207.00	98.50	470.34	671.89

Diluted (₹)

- 1. The above is an extract of the detailed format of consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2020, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited Financial Results and notes thereto are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com & www.bseindia.com) and on Company's website www.talbros.com.
- The Unaudited financial results were recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 9, 2020 and have undergone "Limited Review" by the Statutory Auditors of the Company
- The Group's operations and financial results for the quarter and half year ended September 30, 2020 have been adversely impacted by the outbreak of COVID-19 pandemic and the consequent series of lockdowns announced by the Government of India due to which the operations were suspended for part of first quarter and gradually resumed with requisite precautions. The results for quarter and half year ended are therefore not comparable with those for the previous Period. The Group has considered the possible effects that may results from this pandemic on the carrying amounts of property, plant and equipment. investment, inventories, receivables and other current assets. The Group expects the carrying amount of these assets will be recovered and no material adjustment required in the financial statement. The Company will continue to closely monitor any material changes due to future economic conditions.

For Talbros Automotive Components Limited

Date : November 9, 2020 Place : Gurugram

Umesh Talwar Vice Chairman & Managing Director DIN : 00059271

10 आयाम

त्योहारों के बाद कोराना की दूसरी लहर !

ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में भी कोरोनावायरस की दूसरी लहर आने के बाद लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है

रुचिका चित्रवंशी

हरीन में रहने वाली निशा पंजाबी ने काराना क नरान सभी आशंकाओं से जूझते हुए — क्ण्मने परिवार लगभग एक साल बाद अपने परिवार से मिलने के लिए भारत आने का फैसला किया। वह इस सप्ताह अपने बैग में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड, दस्ताने रखकर दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरीं। हालांकि जिस टैक्सी को उन्होंने हवाईअड्डे से बुक किया था उसमें ड्राइवर तथा यात्री के बीच शील्ड नहीं थी। उन्होंने कहा, 'मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब टैक्सी कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना भारत से चला गया है इसलिए हमने शील्ड हटा दी है।'

देश में बडी आबादी शील्ड का उपयोग नहीं कर रही है। पिछले नौ महीनों में शील्ड, फेस मास्क तथा शारीरिक दुरी ने अहम भूमिका निभाई है लेकिन जैसे जैसे देश में कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है. लोग आम जिंदगी जी रहे हैं लेकिन सावधानियों का ध्यान नहीं रख रहे। हालांकि अगर यूरोपीय देशों में दोबारा लॉकडाउन लगाए जाने

के अनुभव को देखा जाए तो आगामी त्योहारी सीजन तथा सर्दियों में भारत में भी कोरोना की दुसरी लहर देखी जा सकती है।

मिशिगन यूनिवर्सिटी के कोव-इंड-19 समह ने भविष्यवाणी की है कि इस साल के अंत में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए भारत में संक्रमण के लगभग एक करोड मामले सामने आएंगे। पहले ही, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महामारी की दूसरी लहर देखी जा रही है। अमेरिका में आई संक्रमण की पहली लहर में दो बार ऊंचाई देखी गई और वहां एक और लहर देखी जा रही है।

महामारी वैज्ञानियों के अनुसार, भारत अभी भी पहली लहर में है और यहां महामारी के दूसरे शिखर को देखे जाने की संभावना है। हालांकि, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि सितंबर के आंकड़े ऊपर जाएंगे या नहीं। 'बीमारी घटने या कम संख्या में मामलों के बीच महीनों की अवधि के बाद भी तेजी आ सकती है। अशोका श्विविद्यालय में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एवं सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर



गौतम मेनन ने कहा. 'संक्रमण के देश में सितंबर महीने में संक्रमण मामलों में कमी आने के बाद एक बार के मामलों में गिरावट देखी गई थी फिर सर्दियों में मामलों में तेजी आ सकती है। त्योहारी सीजन आ रहा है और अभी तक हमने महामारी पर नियंत्रण पाने की कोशिश में जो पाया है. उसे बचाए रखना बेहद जरूरी है।' भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में सितंबर के महीने में गिरावट आनी शुरू हुई है। दैनिक संक्रमण मामलों की

97,000 के मुकाबले नवंबर में कम होकर 40,000 के करीब आ गई है। हालांकि देश के कई राज्य एक अलग कहानी बताते हैं। राष्ट्रीय आंकडे कम होने के बावजुद अक्टूबर और नवंबर के बीच दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल संख्या सितंबर के मध्य में करीब तथा मणिपुर में सक्रिय मामलों की दिल्ली में दैनिक

संख्या में वृद्धि हुई है।

मिशिगन विश्वविद्यालय में महामारी विज्ञान की प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी ने कहा, 'सीरो सर्वेक्षण से मिले आंकड़ों के आधार पर कोरोना संक्रमण के वास्तविक मामले कुल ज्ञात 83 लाख मामलों से ज्यादा हैं। हालांकि ग्राफ में अगला शीर्ष सितंबर में देखे गए दैनिक एक लाख मामलों से कम का हो सकता है लेकिन इससे बचना बहुत कठिन होगा।' हालांकि, अगर दूसरे देशों के अनुभव से सीखा जाए तो भारत को अपने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी ब्नियादी ढांचे को मजबत करने की जरूरत होगी। मखर्जी कहते हैं. 'अमेरिका में अस्पतालों में भर्ती होने की दर बढ गई है। हम ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहते जहां लोगों को सही देखभाल न मिल सके।'

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल की अध्यक्षता वाली एक समिति ने कहा था कि दिल्ली को सर्दियों के दौरान 15,000 नए दैनिक संक्रमणों के में महामारी बढ रही है। लिए तैयार रहना

चाहिए। नवंबर में

संक्रमण मामलों की संख्या अधिकतम है। राजधानी में शुक्रवार को 6,800 से अधिक मामले सामने आए। सरकार अपने अस्पतालों में अधिक वेंटिलेटर और आईसीय बेड लाने के लिए प्रयास कर रही है

विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी अधिक संख्या में संक्रमण और सीरो सर्वे के आंकडों के बावजद. भारत अभी भी सामाजिक स्तर पर प्रतिरक्षा हासिल करने के करीब नहीं है। यहां आबादी का एक बडा हिस्सा अभी भी संक्रमण के प्रति संवेदनशील है। 13 अरब से अधिक जनसंख्या के साथ. भारत में अभी भी 40-50 प्रतिशत संक्रमण होना बाकी है जो सामाजिक स्तर पर प्रतिरक्षा हासिल करने के जरूरी बताया गया है। मुखर्जी कहती हैं, 'भारत में अधिकांश बड़े शहर एक सीमा तक पहुंच गए हैं और वे सामाजिक स्तर पर प्रतिरक्षा विकिसत होने के करीब हैं। हालांकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों

टाटा का जांच किट तेजी से देगा नतीजे

रॉयटर्स

देश में जब कोरोनावायरस का संक्रमण काफी तेजी से बढ रहा है तब ऐसे वक्त में टाटा समूह ने सोमवार को एक कोविड-19 जांच किट लॉन्च किया और कहा कि यह जांच किट आरटी-पीसीआर के मुकाबले काफी तेजी और आसान तरीके से नतीजे देगा। आरटी-पीसीआर जांच प्रक्रिया को जांच में सबसे मानक स्तर माना जाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सितंबर में कहा था. 'टाटा और भारत सरकार ने संयुक्त रूप से नाक के नमूने की जांच की प्रक्रिया पर काम किया है जो देश में इस वक्त सबसे ज्यादा तरजीह दिए जा रहे रैपिड एंटीजन टेस्ट से ज्यादा सटीक है।' टाटा समुह की स्वास्थ्य सेवा इकाई टाटा मेडिकल ऐंड डायग्नॉस्टिक्स के मुख्य कार्याधिकारी गिरीश कृष्णामूर्ति ने कहा कि कंपनी दक्षिण भारत के शहर चेन्नई में अपने संयंत्र में एक महीने में 10 लाख किट का निर्माण करेगी।

रेलवे की माल ढुलाई में आई तेजी

सचिन मामबटा, शाइन जैकब और कृष्णकांत


अर्थव्यवस्था में नए सिरे से सुधार के संकेत दिखाई दिए क्योंकि देश के बडे हिस्से में दीवाली को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कई साप्ताहिक संकेतकों में वृद्धि देखी गई और ज्यादा माल ले जाने वाली गाड़ियों में वृद्धि देखी गई। वैश्विक स्तर पर विश्लेषक आर्थिक गतिविधियों का अंदाजा लेने के लिए कुछ संकेतकों पर गौर करते हैं ताकि कोविड-19 महामारी के बीच जमीन पर तेजी से बदलती स्थिति का जायजा लिया जा सके। बिज़नेस स्टैंडर्ड यातायात की तादाद, प्रदूषण के स्तर, बिजली उत्पादन के अलावा रेल की गतिविधियों से जुड़े आंकड़े और सर्च इंजन गुगल के आंकडे भी देखता है। ये आंकडे आधिकारिक



Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 202

			(₹ in la	akhs, except p	er share dat
	3 Month	is ended	6 Month	s ended	Year ended
Particulars	30-Sep-2020	30-Sep-2019	30-Sep-2020	30-Sep-2019	31-Mar-2020
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total Income from operations	116839	94796	239220	187335	443663
Net Profit/(loss) for the period (before tax and Exceptional items)	5108	16787	18025	21480	44561
Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional items)	5108	16787	18025	21480	44561
Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional items)	3118	11830	11493	15236	33512
Total comprehensive income for the period					
[Comprising Profit/(loss) for the period (after tax)					
and other comprehensive income (after tax)]	3153	11771	11569	15151	33229
Equity share capital	2479	2479	2479	2479	2479
Other equity					131387
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)					
(a) Basic (in ₹)	1.26	4.68	4.64	5.97	13.32
(b) Diluted (in ₹)	1.26	4.68	4.64	5.97	13.32

दखता हा य आकड़ आावकारिक	Notes:										•		रणामा का र	
आंकड़ों के जारी होने से पहले ही	1. Summarised Standalone Unaudited Fina	ncial Performance of the	Company is as	under :			(₹ in lakhs)					समाप्त तिमाही		समाप्त छग
र्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर का			3 Mont	hs ended	6 Mo	nths ended	Year ended		विवरण	т	30-09-20	30-06-20	30-09-19	30-09-20 3
iदाजा देते हैं। ज्यादातर आंकड़े	Particulars			30-Sep-2019	30-Sep-202						अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित अ
वेवार 8 नवंबर के हैं। गूगल का बिलिटी डेटा एक अंतराल के			(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited		(Audited)	प्रचालनों से वु	कुल आय		11,021.63	5,048.57	9,329.43	16,070.20 2
।।बालटा डटा एक अतराल क द आता है। इसका ताजा आंकडा	Total Income from operations		116473	94850	238717	186998	442357		मदों एवं कर पूर्व त	লাম/(हानि)	770.47	(648.34)	246.22	122.13
ाद आता है। इसका ताजा आकड़ा नवंबर का है।	Profit/(loss) before tax		5000	15591	17383	20091	42144	कर पूर्व लाभ,	,		770.47	(648.34)	246.22	122.13
नवबर का ह। भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष	Profit/(loss) after tax		3255	10700	11295	13913	32748		नेवल लाभ/(हानि	1)	716.92	(618.42)	207.00	98.50
	Total comprehensive income		3255	10700	11295	13913	32652	टिप्पणी:	<u>}</u>		······································			X X X
ो इसी अवधि की तुलना में										ध्यताएं एवं प्रकटन आव लिए समेकित वित्तीय परि				
विवार को समाप्त हुए सात दिनों	 The above is an extract of the detailed for Exchanges under Regulation 33 of the S 							(www.ns	seindia.com एव	व www.bseindia.co	om) और कम्पनी व	की वेबसाइट ww	w.talbros.com	पर भी उपलब्ध हैं।
13.2 फीसदी अधिक माल	ended September 30, 2020 are available of									गामों की 9 नवम्बर, 20				ा समिति द्वारा अनुशं
लाई की। पिछले सप्ताह यह	Company (www.trivenigroup.com).									ं तथा कम्पनी के सांविधि समाप्त तिमाही एवं छमाई				. १० मरामारी के का
गंकड़ा 4.4 फीसदी था। इसने				Fo	or Triveni En	gineering & In	dustries Limited	भारत सरव	कार द्वारा घोषित वि	केये गये लॉकडाउन की	सीरिज के कारण प	ाहली तिमाही के वु	ुछ भाग के लिए प्र	चालन रोके गये थे अं
। वस्तुओं से 2019 की तुलना							Sd/-			र तिमाही एवं छमाही के f				
6.2 फीसदी अधिक पूंजी	Place: Noida						ruv M. Sawhney			नम्पत्तियों की अग्रेषित र शि वसूल हो जाएगी और				
गई जबकि पिछले सप्ताह इसमें	Date: November 9, 2020					Jairman & Ma	naging Director			की बारीकी से निगरानी व				aa ay aha hadasa da
2 फीसदी की गिरावट देखी	Read. Offic	e: Deoband, Distt.	Saharanpur.	Uttar Prade	esh-247 <u>5</u>	54								कृते टालब्रोस ऑव
ई थी ।	Corp. Office: 8th Floor	Express Trade To	wers, 15-16,	Sector-16A	, Noida, U	.P 201 301								
	Website: wy	w.trivenigroup.co	m CIN: L1	5421UP193	2PLC0221	74		टिसांक . ० =	नवम्बर, 2020					
								स्थान : गुरू						
रहित आधार पर'' बेचा जा रहा है, हेतु जोकि 11 जाना था, उसे अब बढ़ा दिया गया है और अब सम 2020 को और गुरुवार, 03 दिसंबर, 2020 को और जाएगा और दस्तावेज और ईएमडी जमा करने की 2020 तक बढ़ा दिया गया है। सभी अन्य नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार रहेंगी। ई–नीत ई–नीलामी बिक्री	भी यूनिटों को एक साथ बुधवार, 02 दिसंबर, र अलग अलग यूनिटों हेतु आयोजित किया गे अंतिम तिथि को अब सोमवार, 30 नवम्बर, लामी प्रक्रिया ज्ञापन के पूर्ण दस्तावेज जिसमें ार्ते वेबसाइट https://right2vote.in और			Reg	d. Office:	401-402, Lus	inse	(INDIA	A) LIMITED		33; Telefax.	: 011-276	79700-05	
केजी सोमा	छताछ हेतु नीचे दिए गए नम्बर पर संपर्क कर किशन गोपाल सोमानी – परिसमापक तं. IBBI/IPA-001/IP-P00300/2017-18/10544 नी इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, त, आसफ अली रोड, नई दिल्ली – 110002	30 सितम्ब	ार, 2020 को	Wet	osite: www	insecticides. <mark>ार्षिक के अल</mark> े	india.com, Emai खापरीक्षित वित्तीय	: investor@ins	ecticidesir	ndia.com, CIN	l: L65991D (₹ लाख		C083909	
ईमेल kgsomani.advance@gmail.com, फोन : 01				-	fi	माही की	न्टैंडअलोन अर्धवार्षिक	वार्षिक	f	तेमाही की	समेकित अर्ध	वार्षिक	वार्षिक	6
		थ्र). सं.	विवरण	-		समाप्ति	समाप्ति	समाप्ति		समाप्ति	स	माप्ति	समाप्ति	21
ੴਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ	ੀ ਕੀ ਫ਼ਰਹਿ				30-09-20 (अलेखापरीक्षित) (अ	30-06-20 30-09- नेखापरीक्षित) (अलेखापर्	19 30-09-20 30-0 ।क्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखा	9-19 31-03-20 परीक्षित) (लेखापरीक्षित) ((30-09-20 अलेखापरीक्षित) (अव	30-06-20 30-09-′ लेखापरीक्षित) (अलेखापरी	9 30-09-20 क्षित) (अलेखापरीक्षित	30-09-19 ा) (अलेखापरीक्षित)	31-03-20 (लेखापरीक्षित)	
ंजाब एण्ड सिंध बैंक 🛛 😥	Punjab & Sind Bank	1 परिचाल	न से कुल आय प्राणी के पूर्व साल न	TDT		0,959.89 50,310				10,959.89 50,310.				hay
(भारत सरकार का उपक्रम)	(A Govt. of India Undertaking)	3 कर अद	ायगी के पूर्व शुद्ध ल ायगी के पश्चात शुर	द्व लाभ	4,140.05	3,198.53 6,209 2,408.12 4,880	.57 6,548.17 8,4	62.0211,046.1174.728,604.06	4,160.63	3,226.82 6,230. 2,436.41 4,901.	58 6,597.04	8,512.30	11,133.36 8,691.31	
<i>Where service is</i> बी.ओ. बेगम, मेरठ,			ठे दौरान कुल समेवि इक्विटी शेयर पूँजी			2,406.64 4,907 2,066.78 2,066		38.18 8,383.60 66.78 2,066.78		2,434.62 4,927. 2,066.78 2,066.		8,474.55 2,066.78	8,467.46 2,066.78	
ৰা.আ. ৰণা শ, শং ত, Phone: 0121-2656071,4023777,		(वास्तवि	क मूल्य ₹10/- प्रति	। शेयर	2,000.70	2,000.70 2,000			2,000.70	2,000.70 2,000.	2,000.76	2,000.70		
ता नामः सुमित कुमार पुत्र ओम सिंह	दिनांक : 06 नवम्बर, 2020	6 आरक्षित के अति	निधिं (पूनर्मूल्यन नि रेक्त)	ताध				70,956.60					71,106.08	
वेत्तीय परिसंपत्तियों प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गव	ठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,	7 प्रति शेर	ार आय	t miner										a series of the
02 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावत ग–धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों व		आधारभू	क मूल्य ₹10/- प्रति त	रायर)	20.03	11.65 23		41.00 41.63	20.13	11.79 23.			42.05	
धिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी उक्त	त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों	मिश्रित			20.03	11.65 23	.61 31.68	41.00 41.63	20.13	11.79 23.	72 31.92	41.19	42.05	
भीतर उसपर अब तेक की तिथि तक ब्य 38,247.76 (रुपए सोलह लाख अड़तीस ह	पाज के साथ सूचना में वणित राशि रु. जगर दो सौ सँतातीस और ऐसे फिरानर	नोटः	तत्रणा जोती (जनीक	रणा बाध्याता और पग	विकरणा भारत्म्य	हताएँ) विनिष्णन अ	15 के विनियम 33 के अंतर	ति स्टॉक एकप्रचेन में १	० जितम्बर २००	० के अंत में टाजिट (तेमाही अन्नेन्ताफी	श्चित स्टैंन्यस्पे	। और जमेकिन	in the
वल) में राशि का भूगतान करने के लिए ऋ	हणी श्री सुमित कुमार पुत्र ओम सिंह को	वित्तीय परि	णामों का सार है । वित्त	तीय परिणामों का पूप	र्ग प्रारूप www.b	seindia.com, ww	v.nseindia.com और कंप	ानी के वेबसाइट www.i	insecticidesin	dia.com पर उपलब्ध	[है			IAA
लाने के लिए दिनांक 02 मार्च, 2020 को मां	ग सचना जारी की थी। ऋणी राशि का	b) उपरोक्त वि					कंपनियों के प्रावधान अधि न के साथ धारा 133 अधिनि			प्रतिभूति और एक्सचेंच	न बोर्ड (''सेबी'') ह	द्वारा लागू और वि	देशानिर्देशों के	ALS SE
गतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9		A CONTRACT AND A CONTRACTACT AND A CONTRACT AND A CONTRACT AND A CONTRACTACT AND A CONTRACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTA			राखा मानक) निर	म, 2015 आर सशाह	न फ साथ धारी 133 अधि-	नयन क तहत निधारत ह	6				10 . 0	ALL PRINK
वि जवाहरतीवारी ने उपरा नियनी के नियन इ 3(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुप	ो और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता	अनुसार हैं c) कंपनी ने उ	इड एस कवानया क न संभावित प्रभावों पर	र विचार किया है जो	वित्तीय परिणामों	पर COVID-19 से र	बिंधित महामारी से उत्पन्न	हो सकते हैं इस महाम	ारी के कारण भवि	विष्य की आर्थिक अनि	श्चिताओं की धारप	गा को दूर करने	कालए कपना	
	ो और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा पालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 06	c) कंपनी ने उ ने सूचना बं	न संभावित प्रभावों पर आंतरिक और बाहर्र	र विचार किया है जो ो स्रोतों का उपयोग	वित्तीय परिणामों किया है । कंपनी	पर COVID-19 से र के आंकलन के आधा	ांबंधित महामारी से उत्पन्न र पर, कोई भी समग्र प्रभाव	नहीं देखा गया है। यह	ारी के कारण भनि देखते हुए कि या	ह एक गतिशील और	श्चिताओं की धारण विकसित स्थिति है	गा को दूर करने इै, प्रबंधन समष्टि	क लिए कपना —आर्थिक और	TRIC
वम्बर, 2020 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप	ो और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा पालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 प से ऋणी व गारंटर और सर्वसाधारण को	 c) कंपनी ने उ ने सूचना वं अन्य संबंधि d) कंपनी के 1 	न संभावित प्रभावों पर आंतरिक और बाहर्र त कारकों में किसी भी 6 डीलरों और वितरव	र विचार किया है जो ो स्रोतों का उपयोग 1ो भौतिक परिवर्तन व हों के साथ दो कर्मच	वित्तीय परिणामों किया है । कंपनी के प्रभाव का बारी गरियों द्वारा की ग	पर COVID-19 से र के आंकलन के आधा ही से निरीक्षण और ग ई धोखाधड़ी के कार	गंबंधित महामारी से उत्पन्न र पर, कोई भी समग्र प्रभाव (ल्यांकन करना जारी रखेग ग असाधारण आइटम इसगं	नहीं देखा गया है । यह ा, जिसका असर कंपनी ां शामिल किया गया है	ारी के कारण भरि देखते हुए कि या के संचालन पर । प्रबंधन ने इस र	ह एक गतिशील और पड़ सकता है। सम्बन्ध में उक्त डीलर	विकसित स्थिति है ों और वितरकों के	है, प्रबंधन समष्टि खिलाफ 04 जु	—आर्थिक और लाई, 2020 को	
वम्बर, 2020 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप तद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की त्रया गया कोई भी लेन—देन भावी ब्याज व आक	ो और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा पालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 प से ऋणी व गारंटर और सर्वसाधारण को 1 वेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कस्मिक शल्कों के सहित ए. 16.38.247.76	c) कंपनी ने उ ने सूचना व अन्य संबंधि d) कंपनी के 1 जांजगीर f	न संभावित प्रभावों पर आंतरिक और बाहर्र त कारकों में किसी र्भ 6 डीलरों और वितरव जेला—जांजगीर—चांप	र विचार किया है जो ो स्रोतों का उपयोग ो भौतिक परिवर्तन व कों के साथ दो कर्मच ग, छत्तीसगढ़ में एफ	वित्तीय परिणामों किया है। कंपनी के प्रभाव का बारी गारियों द्वारा की ग ज्आईआर दर्ज क	पर COVID-19 से ज के आंकलन के आधा की से निरीक्षण और ग ई धोखाधड़ी के कार राया है जिन्होंने अल	ांबंधित महामारी से उत्पन्न र पर, कोई भी समग्र प्रभाव (ल्यांकन करना जारी रखेग ण असाधारण आइटम इसगं ग–अलग ग्राहकों को कम	नहीं देखा गया है। यह ा, जिसका असर कंपनी ां शामिल किया गया है। कीमत पर कैश में साम	ारी के कारण भरि देखते हुए कि या के संचालन पर । प्रबंधन ने इस र तान बेचा है । हाल	ह एक गतिशील और पड़ सकता है। सम्बन्ध में उक्त डीलर लॉकि, कंपनी के अधि	विकसित स्थिति है ों और वितरकों के कृत देनदारों के न	है, प्रबंधन समष्टि खिलाफ 04 जु नाम पर चालान	—आर्थिक और लाई, 2020 को उठाए गए थे।	बुआ कट
र, 2020 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप द्वारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की गया कोई भी लेन—देन भावी ब्याज व आक ! सोलह लाख अड़तीस हजार दो सौ सैंत ।	ो और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा पालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 प से ऋणी व गारंटर और सर्वसाधारण को 1 वेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कस्मिक शुल्कों के सहित रु. 16.38,247.76 11लीस और पैसे छियत्तर केवल) की राशि	 c) कंपनी ने उ ने सूचना व अन्य संबंधि d) कंपनी के 1 जांजगीर f धोखाधड़ी 	न संभावित प्रभावों पर 5 आंतरिक और बाहरीं 6 ढीलरों और वितरव जेला—जांजगीर—चांप नें शामिल कुल राशि	र विचार किया है जो ो स्रोतों का उपयोग ो भौतिक परिवर्तन व हों के साथ दो कर्मच ग, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	वित्तीय परिणामों किया है। कंपनी के प्रभाव का बारी गरियों द्वारा की ग ऽआईआर दर्ज क है। मामले में आंव	पर COVID-19 से ज के आंकलन के आधा ही से निरीक्षण और ग ई धोखाधड़ी के कार राया है जिन्होंने अल ारिक जांच के बाद,	ांबंधित महामारी से उत्पन्न र पर, कोई भी समग्र प्रभाव ल्यांकन करना जारी रखेग ण असाधारण आइटम इसगं ग–अलग ग्राहकों को कम कंपनी का विचार है कि ल	नहीं देखा गया है। यह ा, जिसका असर कंपनी ां शामिल किया गया है कीमत पर कैश में साम् गभग INR 1,000 लाख	ारी के कारण भनि देखते हुए कि या के संचालन पर । प्रबंधन ने इस स गन बेचा है । हात ब बरामद किया	ह एक गतिशील और पड़ सकता है। सम्बन्ध में उक्त डीलर लाँकि, कंपनी के अधि जा सकता है। इसलि	विकसित स्थिति है ों और वितरकों के कृत देनदारों के न ाए, कंपनी ने 30	है, प्रबंधन समष्टि खिलाफ 04 जु नाम पर चालान जून, 2020 को	—आर्थिक और लाई, 2020 को उठाए गए थे। समाप्त तिमाही	C PC
ार, 2020 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप द्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की गया कोई भी लेन–देन भावी ब्याज व आव र सोलह लाख अड़तीस हजार दो सौ सैंता ए पंजाब एंड सिंध बेंक के प्रभार का विषय	ो और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा पालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 प से ऋणी व गारंटर और सर्वसाधारण को 1 वेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ हेस्पिक शुल्कों के सहित रू. 16,38,247.76 Iालीस और पैसे छियत्तर केवल) की राशि य होगा 1	 c) कंपनी ने उ ने सूचना व अन्य संबंधि d) कंपनी के 1 जांजगीर f धोखाधड़ी 	न संभावित प्रभावों पर आंतरिक और बाहर्र त कारकों में किसी र्भ 6 डीलरों और वितरव जेला—जांजगीर—चांप नें शामिल कुल राशि 00 लाख का प्रावधान्य	र विचार किया है जो ो स्रोतों का उपयोग ो भौतिक परिवर्तन व हों के साथ दो कर्मच ग, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	वित्तीय परिणामों किया है। कंपनी के प्रभाव का बारी गरियों द्वारा की ग ऽआईआर दर्ज क है। मामले में आंव	पर COVID-19 से ज के आंकलन के आधा ही से निरीक्षण और ग ई धोखाधड़ी के कार राया है जिन्होंने अल ारिक जांच के बाद,	ांबंधित महामारी से उत्पन्न र पर, कोई भी समग्र प्रभाव (ल्यांकन करना जारी रखेग ण असाधारण आइटम इसगं ग–अलग ग्राहकों को कम	नहीं देखा गया है। यह ा, जिसका असर कंपनी ां शामिल किया गया है कीमत पर कैश में साम् गभग INR 1,000 लाख	ारी के कारण भनि देखते हुए कि या के संचालन पर । प्रबंधन ने इस स गन बेचा है । हात ब बरामद किया	ह एक गतिशील और पड़ सकता है। सम्बन्ध में उक्त डीलर लाँकि, कंपनी के अधि जा सकता है। इसलि	विकसित स्थिति है ों और वितरकों के कृत देनदारों के न ाए, कंपनी ने 30 र स्थिति, लाभ एवं	डे, प्रबंधन समष्दि खिलाफ 04 जु नाम पर चालान जून, 2020 को हानि और तरत	:आर्थिक और लाई, 2020 को उठाए गए थे। समाप्त तिमाही स्ता की स्थिति	C PC
म्बर, 2020 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप दुद्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की या गया कोई भी लेन–देन भावी ब्याज व आक पए सोलह लाख अड़तीस हजार दो सौ सैंता लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रभार का विषय वासीय फ्लेट माप 66 वर्ग मीटर बियरिंग प ारी पार्क, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ, उ.प्र.	ो और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा पालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 प से ऋणी व गारंटर और संवंसाधारण को 1 चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ हस्मिक शुल्कों के सहित रु. 16,38,247.76 1तीस और पैसे छियत्तर केवल) की राशि य होगा। स्तैट न. 86 / एस दूसरी मंजिल, वर्धमान 250001 के सभी भाग व पार्सल	c) कंपॅनी ने उ ने सूचना व अन्य संबंधि d) कंपनी के जांजगीर घोखाधड़ी में INR 1,(न संभावित प्रभावों पर आंतरिक और बाहर्र त कारकों में किसी र्भ 6 डीलरों और वितरव जेला—जांजगीर—चांप नें शामिल कुल राशि 00 लाख का प्रावधान्य	र विचार किया है जो ो स्रोतों का उपयोग ो भौतिक परिवर्तन व हों के साथ दो कर्मच ग, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	वित्तीय परिणामों किया है। कंपनी के प्रभाव का बारी गरियों द्वारा की ग ऽआईआर दर्ज क है। मामले में आंव	पर COVID-19 से ज के आंकलन के आधा ही से निरीक्षण और ग ई धोखाधड़ी के कार राया है जिन्होंने अल ारिक जांच के बाद,	ांबंधित महामारी से उत्पन्न र पर, कोई भी समग्र प्रभाव ल्यांकन करना जारी रखेग ण असाधारण आइटम इसगं ग–अलग ग्राहकों को कम कंपनी का विचार है कि ल	नहीं देखा गया है। यह ा, जिसका असर कंपनी ां शामिल किया गया है कीमत पर कैश में साम् गभग INR 1,000 लाख	ारी के कारण भनि देखते हुए कि या के संचालन पर । प्रबंधन ने इस स गन बेचा है । हात ब बरामद किया	ह एक गतिशील और पड़ सकता है। सम्बन्ध में उक्त डीलर लाँकि, कंपनी के अधि जा सकता है। इसलि	विकसित स्थिति है ों और वितरकों के कृत देनदारों के न ाए, कंपनी ने 30 स्थिति, लाभ एवं निदेशव	डे, प्रबंधन समष्टि खिलाफ 04 जु नाम पर चालान जून, 2020 को ंहानि और तरद क मण्डल के 3	—आर्थिक और लाई, 2020 को उठाए गए थे। समाप्त तिमाही गता की स्थिति गदेशानुसार	
म्बर, 2020 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप दिद्वारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की या गया कोई भी लेन—देन भावी ब्याज व आक पए सोलह लाख अड़तीस हजार दो सौ सँता लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमार का विषय वासीय फलेट माप 66 वर्ग मीटर बियरिंग प नरी पार्क, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ, उ.प्र. माएं निम्नानुसार है : उत्तर : प्लॉट न. 88	ो और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा पालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 प से ऋणी व गारंटर और संवंसाधारण को 1 चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ हस्मिक शुल्कों के सहित रु. 16,38,247.76 1तीस और पैसे छियत्तर केवल) की राशि य होगा। स्तैट न. 86 / एस दूसरी मंजिल, वर्धमान 250001 के सभी भाग व पार्सल	c) कंपॅनी ने उ ने सूचना व अन्य संबंधि d) कंपनी के जांजगीर घोखाधड़ी में INR 1,(न संभावित प्रभावों पर आंतरिक और बाहर्र त कारकों में किसी र्भ 6 डीलरों और वितरव जेला—जांजगीर—चांप नें शामिल कुल राशि 00 लाख का प्रावधान्य	र विचार किया है जो ो स्रोतों का उपयोग ो भौतिक परिवर्तन व हों के साथ दो कर्मच ग, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	वित्तीय परिणामों किया है। कंपनी के प्रभाव का बारी गरियों द्वारा की ग ऽआईआर दर्ज क है। मामले में आंव	पर COVID-19 से ज के आंकलन के आधा ही से निरीक्षण और ग ई धोखाधड़ी के कार राया है जिन्होंने अल ारिक जांच के बाद,	ांबंधित महामारी से उत्पन्न र पर, कोई भी समग्र प्रभाव ल्यांकन करना जारी रखेग ण असाधारण आइटम इसगं ग–अलग ग्राहकों को कम कंपनी का विचार है कि ल	नहीं देखा गया है। यह ा, जिसका असर कंपनी ां शामिल किया गया है कीमत पर कैश में साम् गभग INR 1,000 लाख	ारी के कारण भनि देखते हुए कि या के संचालन पर । प्रबंधन ने इस स गन बेचा है । हात ब बरामद किया	ह एक गतिशील और पड़ सकता है। सम्बन्ध में उक्त डीलर लाँकि, कंपनी के अधि जा सकता है। इसलि	विकसित स्थिति है ों और वितरकों के कृत देनदारों के न ाए, कंपनी ने 30 स्थिति, लाभ एवं निदेशव	है, प्रबंधन समष्टि खिलाफ 04 जु नाम पर चालान जून, 2020 को हानि और तरत क मण्डल के 3 साइड्स (इंडि इ–	आर्थिक और लाई, 2020 को उठाए गए थे। समाप्त तिमाही गता की स्थिति गदेशानुसार या) लिमिटेड	वक्त हर हर बक़्त ह
नवम्बर, 2020 को कब्जा ले लिया है। विशेष रू ,तद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की केया गया कोई भी लेन—देन भावी ब्याज व आक (रुपए सोलह लाख अड़तीस हजार दो सौ सैंता के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रभार का विषर आवासीय फ्लैट माप 66 वर्ग मीटर बियरिंग प कैनरी पार्क, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ, उ.प्र. तीमाएं निम्नानुसार है : उत्तर : प्लॉट न. 87 कैलोनो वाउंडरी वॉल, दक्षिण : प्लॉट न. 87	ो और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा पालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 प से ऋणी व गारंटर और संवंसाधारण को 1 चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ हस्मिक शुल्कों के सहित रु. 16,38,247.76 ालीस और पैसे छियत्तर केवल) की राशि य होगा। हतेंट न. 86 / एस दूसरी मंजिल, वर्धमान 250001 के सभी भाग व पार्सल 5, पश्चिम : 12 मीटर चौड़ा रोड, पूर्व :	c) कंपॅनी ने उ ने सूचना व अन्य संबंधि d) कंपनी के जांजगीर घोखाधड़ी में INR 1,(न संभावित प्रभावों पर 5 आंतरिक और बाहर्र त कारफों में किसी भे 6 डीलरों और वितरव जेला–जांजगीर–चांप जे शामिल कुल राशि 00 लाख का प्रावधान्	र विचार किया है जो ो स्रोतों का उपयोग ो भौतिक परिवर्तन व हों के साथ दो कर्मच ग, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	वित्तीय परिणामों किया है। कंपनी के प्रभाव का बारी गरियों द्वारा की ग ऽआईआर दर्ज क है। मामले में आंव	पर COVID-19 से ज के आंकलन के आधा ही से निरीक्षण और ग ई धोखाधड़ी के कार राया है जिन्होंने अल ारिक जांच के बाद,	ांबंधित महामारी से उत्पन्न र पर, कोई भी समग्र प्रभाव ल्यांकन करना जारी रखेग ण असाधारण आइटम इसगं ग–अलग ग्राहकों को कम कंपनी का विचार है कि ल	नहीं देखा गया है। यह ा, जिसका असर कंपनी ां शामिल किया गया है कीमत पर कैश में साम् गभग INR 1,000 लाख	ारी के कारण भनि देखते हुए कि या के संचालन पर । प्रबंधन ने इस स गन बेचा है । हात ब बरामद किया	ह एक गतिशील और पड़ सकता है। सम्बन्ध में उक्त डीलर लाँकि, कंपनी के अधि जा सकता है। इसलि	विकसित स्थिति है ों और वितरकों के कृत देनदारों के न ाए, कंपनी ने 30 स्थिति, लाभ एवं निदेशव	है, प्रबंधन समष्टि वाम पर चालान जून, 2020 को हानि और तरद क मण्डल के अ साइड्स (इंडि ह — (राजेश अग्रव	आर्थिक और लाई, 2020 को उठाए गए थे। समाप्त तिमाही मता की स्थिति गदेशानुसार या) लिमिटेड ाल)	व्राट हर हर वक़्त छ फसल सुरक्षा
ावम्बर, 2020 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप तदद्वारा संपत्ति के साथ लेन−देन न करने की केया गया कोई भी लेन−देन भावी ब्याज व आक रुपए सोलह लाख अड़तीस हजार दो सौ सैंता हे लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रभार का विषय भावासीय फ्लेट माप 66 वर्ग मीटर बियरिंग फ हैनरी पार्क, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ, उ.प्र. डीमाएं निम्नानुसार है : उत्तर : प्लॉट न. 88	ो और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा पालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर 06 प से ऋणी व गारंटर और संवंसाधारण को 1 चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ हस्मिक शुल्कों के सहित रु. 16,38,247.76 1तीस और पैसे छियत्तर केवल) की राशि य होगा। स्तैट न. 86 / एस दूसरी मंजिल, वर्धमान 250001 के सभी भाग व पार्सल	c) कंपॅनी ने उ ने सूचना व अन्य संबंधि d) कंपनी के 1 जांजगीर धोखाधड़ी में INR 1, पर नहीं है	न संभावित प्रभावों पर अांतरिक और बाहर्र त कारकों में किसी भी 6 डीलरों और वितरव जेला—जांजगीर—चांप में शामिल कुल राशि 00 लाख का प्रावधा	र विचार किया है जो ो स्रोतों का उपयोग ो भौतिक परिवर्तन व हों के साथ दो कर्मच ग, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	वित्तीय परिणामों किया है। कंपनी के प्रभाव का बारी गरियों द्वारा की ग ऽआईआर दर्ज क है। मामले में आंव	पर COVID-19 से ज के आंकलन के आधा ही से निरीक्षण और ग ई धोखाधड़ी के कार राया है जिन्होंने अल ारिक जांच के बाद,	ांबंधित महामारी से उत्पन्न र पर, कोई भी समग्र प्रभाव ल्यांकन करना जारी रखेग ण असाधारण आइटम इसगं ग–अलग ग्राहकों को कम कंपनी का विचार है कि ल	नहीं देखा गया है। यह ा, जिसका असर कंपनी ां शामिल किया गया है कीमत पर कैश में साम् गभग INR 1,000 लाख	ारी के कारण भनि देखते हुए कि या के संचालन पर । प्रबंधन ने इस स गन बेचा है । हात ब बरामद किया	ह एक गतिशील और पड़ सकता है। सम्बन्ध में उक्त डीलर लाँकि, कंपनी के अधि जा सकता है। इसलि	विकसित स्थिति है ों और वितरकों के कृत देनदारों के न ाए, कंपनी ने 30 स्थिति, लाभ एवं निदेशव	है, प्रबंधन समष्टि खिलाफ 04 जु नाम पर चालान जून, 2020 को हानि और तरत क मण्डल के 3 साइड्स (इंडि इ–	ंजार्थिक और लाई, 2020 को उठाए गए थे। समाप्त तिमाही गता की स्थिति गतेशानुसार या) लिमिटेड ाल) क	वक्त हर हर बक़्त ह



अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	1,053.70	(915.63)	339.80	138.07	903.43	1,566.02
अपवादात्मक मदें	-	-	-	-	-	(213.80)
कर पूर्व लाभ/(हानि)	1,053.70	(915.63)	339.80	138.07	903.43	1,352.22
कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)	1,000.15	(885.71)	300.58	114.44	760.42	1,219.96
अवधि के लिए कुल व्यापक आय/(हानि) (कर पश्चात लाभ और कर पश्चात अन्य व्यापक आय शामिल)	1,203.95	(667.87)	84.85	536.08	9.43	182.73
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10.00 प्रत्येक)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56
प्रति शेयर अर्जन (रु. 10/– प्रत्येक) (अवधि के लिए – वार्षिकीकृत नहीं)						
मूल (रु.)	8.10	(7.17)	2.44	0.93	6.16	9.88
तनुकृत (रु.)	8.10	(7.17)	2.44	0.93	6.16	9.88

30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए

। के जारी होने से पहले हो 🗄 👔	otes:															/
	Summarised Standalone Unaudited Financial Po	erformance of the Company is as	under ·			(₹ in lakhs)					হ	रामाप्त तिमाही		समाप्त	फ्रमाही	(रु. लार समाप्त व
त्रस्था का माजूदा तस्वार का 🚊 📔 🗧		3 Month		6 Mont	ns ended	Year ended		विव	वरण	3			30-09-19	30-09-20		
। हैं। ज्यादातर आंकड़े	Particulars	30-Sep-2020	30-Sep-2019	30-Sep-2020	30-Sep-2019	31-Mar-2020					लेखापरीक्षित अ			अलेखापरीक्षित		_
हैं। गूगल का		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	प्रचालन	ां से कुल आय				5,048.57	9,329.43			
अंतराल के	intel la como from en castione		· · /		. ,	. ,		त्मक मदों एवं कर प	पर्व लाभ/(हानि)		770.47	(648.34)	246.22	122.13	613.35	
આવગણાં 📃 🛏	otal Income from operations	116473	94850	238717	186998	442357		लाभ/(हानि)	<u>x- () (() ()</u>	/	770.47	(648.34)	246.22	122.13	613.35	
	Profit/(loss) before tax	5000	15591	17383	20091	42144	61	गत निवल लाभ/(ह	हानि)			(618.42)	207.00	98.50	470.34	
वर्ष	Profit/(loss) after tax	3255	10700	11295	13913	32748	टिप्पणी:									
ाना में 🕴 🔤	otal comprehensive income	3255	10700	11295	13913	32652	1. उपरो	क्त, सेबी (सूचीयन	। बाध्यताएं एवं प्र	कटन आवश्यक	ताएं) विनियम, २	2015 के विनिय	म 33 के अधीन	। स्टॉक एक्सचेंजों में	ों दाखिल 30 सि	ातम्बर, 202
	The above is an extract of the detailed format of	Financial Results for the Quarter a	and Half Year e	nded Septemb	er 30, 2020 fileo	with the Stock					C			वेत्तीय परिणामों को प्	G	एक्सचेंज वेब
क माल	Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (L	ODR) Regulations, 2015. The full	format of the F	inancial Result	s for the Quarte	r and Half Year								n पर भी उपलब्ध क्षा समिति द्वारा अन		और निदेशर
गह 🛛	ended September 30, 2020 are available on the w	vebsites of Stock Exchange(s) (www	w.bseindia.com	and www.nsei	ndia.com) and o	n the website of		अनुमोदन किया गय						11 (111) (1 81(1 0).3	Sel (11 47 - 12 6 (אויזיויאוי
Ì	Company (www.trivenigroup.com).													– 19 महामारी के व		
ना			Fo	or Triveni Eng i	neering & Indu	stries Limited								प्रचालन रोके गये थे		
ची ।					Dha	Sd/-								समूह ने सम्पत्ति, सं ग्भावों पर विचार कि		
~ <u>,</u> :	lace: Noida ate: November 9. 2020			Cł		v M. Sawhney aging Director								ोगा। कम्पनी भविष्य		
रेखी	ate: November 9, 2020			0		aging Director	किर्स	। भी भौतिक परिवर्त	नि की बारीकी से	ो निगरानी करना	। जारी रखेगा।					
आ		oband, Distt. Saharanpur,												कृते टालब्रोस अ	ऑटोमोटिव कम्	<u>`</u>
	Corp. Office: 8 th Floor, Exp	ress Trade Towers, 15-16,	Sector-16A	, Noida, U.F	201 301											हस्त उमेश त
	Website: www.tri	venigroup.com CIN: L1	5421UP193	2PLC02217	1		टिनांक	9 नवम्बर, 202	0						ज्याश्यक्ष	। एवं प्रबंध नि
								्र जन्मस्य २, २०२ गुरुग्राम	-							एव प्रबंध । एन 00059
फैंक्टेंट्स इंडिया लिबि	मेटेड – परिसमापन में															
ामी को तिथि को बढाव	ने हेत सचना															
इंडिया लिमिटेड – परिसमापन में	में, की विभिन्न यूनिटों के आधार पर															
	ोसा है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व नवंबर, 2020 को आयोजित किया				. 🦱	N				ACTOR	BRA					
	नवबर, 2020 का आयाजित किया। i को एक साथ बुधवार, 02 दिसंबर,									A Contraction	13					
देसंबर, 2020 को और अलग	अलग यूनिटों हेतु आयोजित किया									8-ar						
ोर ईएमडी जमा करने की अंतिम ' है	तिथि को अब सोमवार, 30 नवम्बर ,					inse	CTIC	laes	5	IL						
	bया ज्ञापन के पूर्ण दस्तावेज जिसमें						(IN	DIA) LIMITE	ED I							
गरण नियम एवं शर्ते वेबस	नाइट https://right2vote.in और		Reg	d. Office: 4	1_/02 Luca		-				-	011 0707	0700 05			
	नु नीचे दिए गए नम्बर पर संपर्क कर					Tower, Azadpu										
IBBI पंजीकरण सं IBBI/IF	शन गोपाल सोमानी — परिसमापक					i Tower, Azadpu idia.com, Email										
	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544	२० गिनास २०२० को	Wet	osite: www.i	nsecticidesir	idia.com, Email	: investor@	insecticide			_65991DL	_1996PLC	083909			
केजी सोमानी इन्सॉ 15, चौथी मंजिल, आसफ	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 ल्वेंसी प्रोफेशनल्स् प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली — 110002	30 सितम्बर, 2020 को	Wet	osite: www.i	nsecticidesir कि के अलेख	idia.com, Email गपरीक्षित वित्तीय	: investor@	insecticide		om, CIN: L	_65991DL (₹ लाख ग		083909			
केजी सोमानी इन्सॉत चौथी मंजिल, आसफ	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 ल्वेंसी प्रोफेशनल्स् प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली — 110002		Wet	osite: www.i <mark>ही व अर्घवा</mark> र्गि	nsecticidesir किके अलेख स्टै	idia.com, Email <mark>।।परीक्षित वित्तीय</mark> ^{डअलोन}	: investor@ परिणामों क	insecticide <mark>ग निष्कर्ष</mark>	sindia.co		_65991DL <u>(</u> ₹ लाख य कित	_1996PLC में, ईपीएस के	083909 े अतिरिक्त)	a 24	72.35	
केजी सोमानी इन्सॉक , चौथी मंजिल, आसफ	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 ल्वेंसी प्रोफेशनल्स् प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली — 110002	30 सितम्बर, 2020 को क्र. सं. विवरण	Wet	osite: www.i <mark>ही व अर्धवा</mark> गि _{तिम} स	nsecticidesir किके अलेख स्टै _{ही की} गाप्ति	Idia.com, Email <mark>IIपरीक्षित वित्तीय</mark> डअलोन अर्धवार्षिक समाप्ति	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति	insecticide <mark>ञ निष्कर्ष</mark>	sindia.co तिमाही की समाप्ति	ım, CIN: L समे।	_65991DL (₹ लाख प कित अर्धव सम	_1996PLC में, ईपीएस के गर्षिक गरित	083909 के अतिरिक्त) वार्षिक समाप्ति		27.95	
केजी सोमानी इन्सॉत , चौथी मंजिल, आसफ com, फोन : 011-41426	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 ल्वेभी प्रोफेशनल्स् प्राइवेट लिमिटेड, : अली रोड, नई दिल्ली – 110002 5262, 011-23277677, 9310182010		Wet	bsite: www.i <mark>ही व अर्धवा</mark> गि _{तिग}	nsecticidesir किके अलेख स्टै _{ही की} गाप्ति	idia.com, Email <mark>ापरीक्षित वित्तीय</mark> ^{डअलोन} अर्धवार्षिक	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति	insecticide <mark>ञ निष्कर्ष</mark>	sindia.co तिमाही की समाप्ति	ım, CIN: L समे।	_65991DL (₹ लाख प कित अर्धव	_1996PLC में, ईपीएस के गर्षिक गरित	083909 • अतिरिक्त) वार्षिक			
केजी सोमानी इन्सॉत चौथी मंजिल, आसफ m, फोन : 011-41426	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 ल्वेभी प्रोफेशनल्स् प्राइवेट लिमिटेड, : अली रोड, नई दिल्ली – 110002 5262, 011-23277677, 9310182010	क्र. विवरण सं. 1 परिचालन से कल आय	Wet समाप्त तिमा	Disite: www.ii ही व अर्धवा ितिम स 30-09-20 30 (अलेखापरीक्षित) (अलेख 40,	nsecticidesir कि के अलेख रही की गपित 106-20 30-09-19 1परीक्षिल)(अलेखापरीक्ष 359.89 50,310.4	ndia.com, Email IUरशिक्त वित्तीय डअलोन अर्घवार्षिक समाप्ति (अतेखार्थाक्षत)(अतेखा 3 86,544.69 86,11	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति 9-19 31-03-20 गरीक्षित) (लेखापरीक्षि 59.16 136,321.5	insecticide ि निष्कर्ष 30-09-20 त) (अलेखागरीक्षित) 6 45,584.80	sindia.co तिमाही की समाप्ति 30-06-20 (अलेखापरीक्षित) 40,959.89	m, CIN: L रागे। 30-09-19 (अलेखागरीक्षित) 50,310.45	.65991DL (ह लाख य कित अर्धव सम 30-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69	_1996PLC में, ईपीएस के गप्ति 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16	CO83909 अतिरिक्त) वार्षिक समाप्ति 31-03-20 (तंखापरीक्षित) 136,321.96			
जी सोमानी इन्सॉत गे मंजिल, आसफ फोन : 011-41426 दाव्यवु नी वॉ द्रवयि	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 ल्वेभी प्रोफेशनल्स् प्राइवेट लिमिटेड, : अली रोड, नई दिल्ली – 110002 3262, 011-23277677, 9310182010	क्र. सं. 1 परिचालन से कुल आय 2 कर अदायगी के पूर्व शद्ध ल	Wet समाप्त तिमा	bsite: www.ii ही व अर्घवा तिम रा 30-09-20 (अवेख्यापरीक्षित) (अवेस् 45,584.80 5,519.85 3,	nsecticidesir कि के अलेख रहै की गाप्ति 106-20 30-09-19 107(8) 830-09-19 50,310.4 959.89 50,310.4 985.53 6,209.6	ndia.com, Email IIपरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समाप्ति 30-09-20 30-0 (अलेखपारीक्ष)(अलेखा 5 86,544.69 86,11 3 8,718.38 11,33	: investor@ परिणामों क वार्षिक समाप्ति 9-19 31-03-20 (लेखापरीह 39.16 136,321.5 32.02 11,046.	insecticide त निष्कर्ष (अत्तेस्वार्गशित) 45,584.80 5,540.43	sindia.co तिमाही की समाप्ति 30-06-20 (अत्येलपशित्त) 40,959.89 3,226.82	m, CIN: L रामे। 30-09-19 (अलेस्थापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69	_65991DL (ह लाख य कित अर्धव अर्थव 30-09-20 (अलेखापरीक्षित) 86,544.69 8,767.25	_1996PLC में, ईपीएस वे ापित 30.09-19 (अलेखागरीक्षित) 86,169.16 11,399.60	2083909 जे अतिरिक्त) वार्षिक समाफित 31-03-20 (लेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36			
जी सोमानी इन्सॉत मे मंजिल, आसफ फोन : 011-41426 बाव्यि से बाह्य हिंहू Pur vice is a way	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 ल्वेसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, : अली रोड, नई दिल्ली – 110002 5262, 011-23277677, 9310182010 njab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) of life	 क्र. म. वेवरण 1 परिचालन से कुल आय 2 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के प्रचात शु 4 अवधि के दौरान कुल समेवि 	Wet समाप्त तिमाग नाम द लाम त आय	bsite: www.ii ही व अर्घवार्गि 30-09-20 अलेखापशीक्षेत्र) (अलेख 45,5584.80 40,5519.85 3,4,140.05 2,4,158.61 2,	secticidesir कि के अलेख रहै की की गापित (अलेखापसी8 559.89 50,310.4 198.53 6,209.6 108.12 4,880.5 108.64 4,907.5	ndia.com, Email ापरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30.09-20 30.09-20 30.0 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 	: investor@ परिणामों व समापि 9-19 13-03-27 सरीक्षेव) (देखापरीक्षि 99.16 136,321.9 11,046.4 8,604.4 4,72 8,604.4 8,818	insecticide 30-09-20 (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) 45,584.80 5,540.43 45,540.63 4,178.89	sindia.co तिमाही की समाप्ति 30-06-20 (अलेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,438.41 2,434.62	m, CIN: L समे1 (अत्वेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88	_65991DL (हे लाख य कित्त अर्धव सम 30-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51	-1996PLC में, ईपीएस के ाप्ति (अलेखागरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55	2083909 जे अतिरिक्त) वार्षिक समाप्ति 31-03-20 (लेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46			
ो सोमानी इन्सॉत 1 मंजिल, आसफ गेन : 011-41426 पिखान से थे डनांग िंह हे थे क्रि. गिवान से क्रि. क्र क्रि. क्रि. क्र	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 ल्वेसी प्रोफेशनल्स् प्राइवेट लिमिटेड, : अली रोड, नई दिल्ली – 110002 5262,011-23277677,9310182010 njab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) of life 250001	 म. म. विवरण भ. 1 परिचालन से कुल आय 2 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के पर्रचात शुद 4 अवधि के दौरान कुल समेंबि 5 पेड–अप इक्विटी शेयर पूँजी 	Wet समाप्त तिमाग 	bsite: www.ii ही व अर्घवार्गि 30-09-20 अलेखापशीक्षेत्र) (अलेख 45,5584.80 40,5519.85 3,4,140.05 2,4,158.61 2,	nsecticidesir कि के अलेख ही की गाप्ति 06-20 30-09-19 गापशिक्षा) (अलेखापशीक्ष 959.89 50,310.4 98.53 6,209.6 08.12 4,880.5	ndia.com, Email ापरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30.09-20 30.09-20 30.0 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति 9-19 31-03-22 रिशिक्त) (देवापरीह 9.9.16 136,321.5 20.2 11,046.5 20.7 2 1,048.6 4.72 8,604.0	insecticide 30-09-20 (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) 45,584.80 5,540.43 45,540.63 4,178.89	sindia.co तिमाही की समाप्ति (अत्येषापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41	m, CIN: L समे। (अतेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58	_65991DL (₹ लाख व कित अर्धव राम 30-09-20 (अलेखारपीक्षित) 86,544.69 8,767.25 6,597.04	_1996PLC में, ईपीएस के ापित 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30	2083909 अतिरिक्त) वार्षिक समाप्ति 31-03-20 (देखपरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31			
ो सोमानी इन्सॉत मजिल, आसफ गेन : 011-41426 गेन्यव नो वो हर्नाग हिंह is a way मेरठ, मेरठ–2 23777, E-mail:	PA-001/I/P-P00300/2017-18/10544 ल्वेसी प्रोफेशनल्स् प्राइवेट लिमिटेड, : अली रोड, नई दिल्ली – 110002 5262,011-23277677,9310182010 Caset. of India Undertaking) of life 250001 : m0169@psb.co.in	 क्र. तिवरण परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल अवधि के दौरान कुल समोवि पेड–अप इविवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति 6 आरक्षित निल्ध (पूनमृत्यन नि 	Wet समाप्त तिमा तिमा इ. लाभ ज्ञ आय शेयर	bsite: www.ii ही व अर्घवार्गि 30-09-20 अलेखापशीक्षेत्र) (अलेख 45,5584.80 40,5519.85 3,4,140.05 2,4,158.61 2,	secticidesir कि के अलेख रहै की की गापित (अलेखापसी8 559.89 50,310.4 198.53 6,209.6 108.12 4,880.5 108.64 4,907.5	ndia.com, Email ापरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30.09-20 30.09-20 30.0 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 	: investor@ परिणामों व समापि 9-19 13-03-27 सरीक्षेव) (देखापरीक्षि 99.16 136,321.9 11,046.4 8,604.4 4,72 8,604.4 8,818	insecticide 5 (30-09-20 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)	sindia.co तिमाही की समाप्ति 30-06-20 (अलेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,438.41 2,434.62	m, CIN: L समे1 (अत्वेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88	_65991DL (हे लाख य कित्त अर्धव सम 30-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51	-1996PLC में, ईपीएस के ाप्ति (अलेखागरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55	2083909 जे अतिरिक्त) वार्षिक समाप्ति 31-03-20 (लेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46			
सोमानी इन्सॉ मंजिल, आसफ न : 011-41426 प्रेयाव मी की इवर्षि हिंहा में की इवर्षि हिंहा के क्या की दहा के के क्या की स्वार्य के कि	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्वेसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, : अली रोड, नई दिल्ली – 110002 5262,011-23277677,9310182010 njab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) of life 550001 : m0169@psb.co.in दिनांक : 06 नवम्बर, 2020	 क्र. परिचालन से कुल आय वेवरण परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के परचात शुद अवधि के दौरान कुल समेवि पेड-अप इक्विटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आरक्षित निधि (पूनर्मूल्यन नि के अतिरिक्त) 	Wet समाप्त तिमा तिमा इ. लाभ ज्ञ आय शेयर	bsite: www.ii ही व अर्घवार्गि 30-09-20 अलेखापशीक्षेत्र) (अलेख 45,5584.80 40,5519.85 3,4,140.05 2,4,158.61 2,	secticidesir कि के अलेख रहै की की गापित (अलेखापसी8 559.89 50,310.4 198.53 6,209.6 108.12 4,880.5 108.64 4,907.5	ndia.com, Email ापरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30.09-20 30.09-20 30.0 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 	: investor@ परिणामों व बनाक समाप्ति 9-19 31-03-20 राधीक्षेत्र) (लेखपरीक्षे 39.16 136,321.9 39.16 136,321.9 47.72 8,604.4 8,383.8 8,888 8,838.3 8,86.78 2,066.3	insecticide 5 (30-09-20 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)	sindia.co तिमाही की समाप्ति 30-06-20 (अलेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,438.41 2,434.62	m, CIN: L समे1 (अत्वेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88	_65991DL (हे लाख य कित्त अर्धव सम 30-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51	-1996PLC में, ईपीएस के ाप्ति (अलेखागरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55	2083909 जे अतिरिक्त) वार्षिक समापित 31-03-20 (देखपरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78			
सोमानी इन्सॉत जिल, आसफ बाउ नी वी इवरि हि Pun <i>e is a way</i> रेरठ, मेरठ–2 3777, E-mail: पूनर्गठन तथा	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्वेसी प्रोफेशनल्स, प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 2262, 011-23277677, 9310182010 njab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) of life 250001 : m0169@psb.co.in दिनांक: 08 नवम्बर, 2020 प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,	 क्र. तिवरण परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल अवधि के दौरान कुल समोवि पेड–अप इविवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति 6 आरक्षित निल्ध (पूनमृत्यन नि 	Wet समाप्त तिमाग माभ द्व लाभ द्व लाभ शेयर धि	bsite: www.ii ही व अर्घवार्गि 30-09-20 अलेखापशीक्षेत्र) (अलेख 45,5584.80 40,5519.85 3,4,140.05 2,4,158.61 2,	secticidesir कि के अलेख रहै की की गापित (अलेखापसी8 559.89 50,310.4 198.53 6,209.6 108.12 4,880.5 108.64 4,907.5	ndia.com, Email ापरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30.09-20 30.09-20 30.0 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 30.01 	: investor@ परिणामों व बनाक समाप्ति 9-19 31-03-20 राधीक्षेत्र) (लेखपरीक्षे 39.16 136,321.9 39.16 136,321.9 47.72 8,604.4 8,383.8 8,888 8,838.3 8,86.78 2,066.3	insecticide 5 (30-09-20 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)	sindia.co तिमाही की समाप्ति 30-06-20 (अलेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,438.41 2,434.62	m, CIN: L समे1 (अत्वेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88	_65991DL (हे लाख य कित्त अर्धव सम 30-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51	-1996PLC में, ईपीएस के ाप्ति (अलेखागरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55	2083909 जे अतिरिक्त) वार्षिक समापित 31-03-20 (देखपरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78			
ो सोमानी इन्सॉत मजिल, आसफ जेन : 011-41426 1003 जी को प्रवर्ध 1003 जिल्हा कि जिल्हा पुनर्गाठन तथा पुनर्गाठन तथा पुनर्गाठन तथा	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्लेसी प्रोफेशनल्स, प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 2262, 011-23277677, 9310182010 Image: Specific and State and	 म. म. परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल अवधि के दौरान कुल समेवि पेड-अप इक्विटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आरक्षित निश्चि (पूनर्मूल्यन नि के अतिरिक्त) प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आधारमुत 	Wet समाप्त तिमाग माभ द्व लाभ द्व लाभ शेयर धि	bsite: www.ii ही व अर्धवार्ण 30-09-20 30 (जलेखापशीक्षा) (जलेख 45,554.80 40, 5,519.85 3, 4,140.05 2, 4,158.61 2, 2,066.78 2, 20.03	nsecticidesir कि के अलेख रहै की की गापित (खलेखपगरी 559.89 559.89 559.89 559.89 559.89 559.89 550.310.4 98.53 6,209.6 4,880.5 106.64 4,907.5 1066.78 2,066.77 11.65 23.6	ndia.com, Email IIUरीक्षित वित्तीय डअलोन <u>अर्धवार्षिक</u> समापित (अलेखागरीक्षिल) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 3 8,718.38 11,33 7 6,548.17 8,44 3 6,565.25 8,43 3 2,066.78 2,00 1 31.68	: investor@ परिणामों व यारिण स्पामित वार्षिक स्पामित (देखागरी 89.16 136,321.1 32.02 11,046. 8,604. 8,864. 8,864. 8,864. 70,956.0 41.00 41.0	ansecticide 30-09-20 (अलेखापशीक्षत) (अलेखाप्षत) (अलिखाप्षत) (अलिखाप्षत	sindia.co रिामाही की समाप्ति 30-06-20 (अर्वरेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78	m, CIN: L समे1 (अलेखागरीविंत) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78	.65991DL (ह लाख य कित अर्धव सुम्प (अलेखागरीबित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78	1996PLC में, ईपीएस वे गरित 30-09-19 (अलेखागरीबित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78	2083909 अतिरिक्त) वार्षिक समाप्ति 31-03-20 (लेखापरीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08			
सोमानी इन्सॉत मजिल, आसफ न : 011-41426 Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pur Pu	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्वेसी प्रोफेशनल्स, प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 5262, 011-23277677, 9310182010 Image: Single Single Bank (A Govt of India Undertaking) of life 250001 :m0169@psb.co.in दिनांक : 06 नवम्बर, 2020 प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 22 के नियम 9 के साथ पठित 16न में पंजाब एंड सिंध बैंक के 16 को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों	 म. म. परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पर्व शुद्ध ल अवधि के दौरान कुल समोवि पेड–अप इविवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति आरक्षित निम्धि (पूनर्मूल्यन नि के अतिरिक्त) ग्राते शेयर आय (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति आधारमूत मिश्रित 	Wet समाप्त तिमाग माभ द्व लाभ द्व लाभ शेयर धि	bsite: www.ii ही व अर्धवार्ण 30-09-20 30 (जलेखापशीक्षा) (जलेख 45,554.80 40, 5,519.85 3, 4,140.05 2, 4,158.61 2, 2,066.78 2, 20.03	nsecticidesir कि के अलेख रर्ट ही की गाप्ति (अलेखापशीक्ष)55.89 50,310.4 (98.53 62.09.6 08.12 4,880.5 106.64 4,907.5 2,066.7	ndia.com, Email IIUरीक्षित वित्तीय डअलोन <u>अर्धवार्षिक</u> समापित (अलेखागरीक्षिल) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 3 8,718.38 11,33 7 6,548.17 8,44 3 6,565.25 8,43 3 2,066.78 2,00 1 31.68	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति 9-19 31-03-20 रागीक्षित) (लेखागरीहि 99.16 136,321,84 136,324,84 136,324,84 136,604,4 8,18 8,383,4 8,604,4 8,18 8,383,4 8,604,4 8,18 8,383,4 8,604,4 70,956,6	ansecticide 30-09-20 (अलेखापशीक्षत) (अलेखाप्षत) (अलिखाप्षत) (अलिखाप्षत	sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (अलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78	m, CIN: L समे1 (अलेखापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78	_65991DL (₹ लाख य कित अर्घव राम 30-09-20 (अलेखाररीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78	1996PLC में, ईपीएस वे ापित 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78	2083909 जे अतिरिक्त) वार्षिक समाप्ति 31-03-20 (लेखापरीक्षित्त) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08			
केजी सोमानी इन्सॉत भी मंजिल, आसफ 1, फोन : 011-41426 () ब्रिय्यु नी वो हवांग () () () () () () () () () () () () () () () () () ()	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्लेसी प्रोफेशनल्स, प्राइवेट लिमिटेड, : अली रोड, नई दिल्ली – 110002 5262,011-23277677,9310182010 PA-Govt: of India Undertaking) of life 250001 : m0169@psb.co.in दिनांक : 06 नवम्बर, 2020 प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 20 के नियम 9 के साथ पठित तलन में पंजाब एंड सिंध बैंक के तकी प्रधिन की तिथि से 60 दिनों साथ सुचना में वर्णित राशि रु.	 म. म. परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त कर अदायगी के परचात शुद अवधि के दौरान कुल समेंवि पेड-अप इविचटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आरक्षित निधि (पूनर्मूल्यन नि के अतिरिक्त) प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आघारभूत मिश्रित नोट: 	Wet समाप्त तिमा इ लाभ द लाभ त आय शेयर धि शेयर)	bsite: www.ii ही व अर्घवार्गि (जलेस्वापरीविंता) (जलेस 45,584.80 40, 5,519.85 3, 4,140.05 2, 4,158.61 2, 2,066.78 2, 2,066.78 2,	nsecticidesir कि के अलेख ररे ही की गापित 06-20 30-09-19 गपरीक्षित) (अलेखापरीक्षि 059.89 50,310.4 198.53 6,209.6 108.12 4,880.5 106.64 4,907.5 106.64 4,907.5 106.64 2,066.74 2,066.78 2,066.74	adia.com, Email IIUरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित (अलेखापरीक्षित) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 3 8,718.38 11,33 5 86,554.57 8,44 3 2,066.78 2,00 1 31.68 4 1 31.68 4	: investor@ परिणामों व वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्षिक रामार्टेन वार्णिक वारावेन्द्र वारावेक्त्य वारावेक्य वारावेक्य वारावेक्य वारावेक्य वार	insecticide 30-09-20 (30-09-2	sindia.co तिमाही की समाप्ति 39-06-20 (जलेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79	m, CIN: L रागे1 (अलेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72	.65991DL (ह लाख व कित अर्धव सम (अलेखापरीक्षित) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92	-1996PLC में, ईपीएस वे गरित 30-09-19 (अलेखागरीबित) 86,169.16 11,399.60 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19	2083909 अतिरिक्त) वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05			
ति सोमानी इन्सॉत थी मंजिल, आसफ , फोन : 011-41426 एगंटर is a way म, मेरठ, मेरठ–2 4023777, E-mail: रवं पुनर्गठन तथा नियमावली, 200 शक्तियों के अनुप क्षरी उक्त सूचना । तक ब्याज के इतीस हजार दो	2A-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्वेसी प्रोफ्टेंगल्स, प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 2262, 011-23277677, 9310182010 Image: Colspan="2">Image: Colspan="2" Colspan	 म. म. परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पर्व शुद्ध ल अवधि के दौरान कुल समोवि पेड–अप इविवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति आरक्षित निम्धि (पूनर्मूल्यन नि के अतिरिक्त) ग्राते शेयर आय (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति आधारमूत मिश्रित 	Wet समाप्त तिमा। मम द्व लाभ त आय शेयर धि शेयर) रण बाध्यता और प्रग	bosite: www.ii	nsecticidesir कि के अलेख रही की 11िक 300-9-19 106-20 30-09-19 106-20 30-09-19 106-20 30-09-19 106-20 30-09-19 50,310.4 198.53 6,209.6 108.12 4,880.5 106.64 4,907.5 2,066.77 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6	adia.com, Email IUTरीक्षित वित्तीय डअलोन उप्रवित्त वित्तीय उप्रवित्त वित्तीय उप्रवित्त वित्त 86,544.69 86,514 .69 86,514.69 86,11 8 ,718.38 11,31 7 6,548.17 7 6,556.25 8,4 9 2,066.78 2,06 1 31.68 1 31.68 3 31.68 3 3 31.68 3 3 3 3 3 3 3 3	: investor@ परिणामों व स्पापित स्पापित अ103221 310322 31032 3103 31032 3103 3100 3103 3103 3100 3103 3103 3	insecticide 30-09-20 (अर्वस्वारशिसत) (अर्वस्वारशिसत) 6 45,584.80 5,540.43 4,160.63 4,178.89 2,066.78 50 33 20.13 20.13 1 1 30 1 1 30 20.13 20.14 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15	sindia.co रोमाही की समागित (जरेखापर्शवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79	m, CIN: L रामे1 (अले स्वापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 2,372 23.72 23.72	.65991DL (₹ लाख प कित अर्धव सम 30-09-20 (अलेखापगीक्षत) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 31.92 81 अलेखापरीक्षि	-1996PLC में, ईपीएस वे गरित 30-09-19 (अलेखागरीबित) 86,169.16 11,399.60 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19	2083909 अतिरिक्त) वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05			
केजी सोमानी इन्सॉत ग्रेथी मजिल, आसफ n, फोन : 011-41426 19 - - - - - - - - - -	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्वेसी ग्रेफेशनल्स, प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 3262, 011-23277677, 9310182010 anjab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) of life 50001 stanta in the india Undertaking and the indin Undertaking and the india Undertaking <	 म. म. परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पर्य गुद्ध ल कर अदायगी के पर्य गुद्ध त अवधि के दौरान कुल समोवि पेड–अप इविवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति आरक्षित निधि (पूनर्मृल्यन नि के अतिरिक्त) ग्रात शेयर आय (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति आधारमूत मिश्रित चोट: a) उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीक वित्तीय परिणामों का सार है। वित् b) उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारती. 	Wet समाप्त तिमा ताम इ लाम ज्ञ आय शेयर धि शेयर) रण बाध्यता और प्रग ीय परिणामों का पूप य लेखा मानक (इंड	bsite: www.ii ही व अर्धवार्गि (तम 30-09-20 30 (जलेखागरीवित) (जलेख 45,584.80 40, 5,519.85 3, 4,140.05 2, 4,158.61 2, 2,066.78 2, 20.03 20.03 20.03 20.03	Secticidesir क अलेख क अलेख दर्ट उ००१-१९ छारित उ००१-१९ छारित उ००१-१९ एगरित ५,880.5 एगरित ५,907.5 एगरित २,066.7% १,066.78 २,066.7% ११ २३.6 ११ ३३.6 ११ ३३.6 ११ ३३.6 ११ ३३.6 ११ ३३.6 १३.1 ३३.6 १३.1 ३३.6 १३.1 ३३.7 १३.1 ३३.7 १३.1 ३३.7 १३.1 ३३.7 १३.1 ३३.7 १३.7 ३३.7 १३.7 ३३.7	adia.com, Email IIUरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30.09.20 6 86,544.69 8 86,544.69 8 86,544.69 8 86,544.69 8 86,544.7 8 44,718,84 0 6,565.25 8,43 3 2,066.78 2,00 1 31.68 4 31.68 5 के विनियम 33 के अंतग seeindia.com और कंग प्रवियों के प्रावधान अधि	: investor@ परिणामां व अन्त्र वार्षिक रामारित 3-19 3-103-27 11,046. 22,02 11,046. 136,321.1 32,02 11,046. 14,72 8,804. 8,804. 8,804. 8,804. 8,804. 8,804. 8,804. 8,804. 8,804. 8,804. 8,804. 70,956.6 70	insecticide 30-09-20 (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) 6 45,584.80 5,540.43 6 4,160.63 6 4,160.63 6 4,178.89 8 2,066.78 3 20.13 20.13 20.13 1 3 3 20.14 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.15 20.	Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (अलेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 11.79	m, CIN: L समे1 (अलेखपर्भावेत) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72	.65991DL (₹ लाख य कित अर्धव राग ३0-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 31.92	1996PLC में, ईपीएस वे ग ित 30-09-19 (अलेखगपीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19	2083909 जार्षिक समाप्ति 31-03-20 (तेखापरीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 11,133.36 11,133.36 11,133.36 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05			
केजी सोमानी इन्सॉत हो राज्यवा ने वे हन्संत को राज्यवा ने वे हन्सं के राज्यवा ने वे हन्सं के राज्यवा ने वे हन्सं के राज्य के प्राप्त श्विर प्राप्त के ने क्याज शविरयों के अनुप ताक्षरी उक्त सूचना थे तक व्याज के अड़तीस हजार दो के लिए ऋणी और स	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्लेसी प्रोफेशनल्स, प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 2262, 011-23277677, 9310182010 S262, 011-23277677, 9310182010 Interpret Section 11/2022 Interpret Section 11/202 Interpret Section	 म. म. परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त अवधि के दौरान कुल समेवि पेड-अप इक्विटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आरक्षित निषि (पूनर्मूल्यन न के अतिरिक्त) प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आधारभूत मिश्रित चोट: a) उपरोक्त अवतरण, सेवी (सूचीक वित्तीय परिणामां का सार है। वित्त) उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारती: अनुसार है। इंड एस कंपनियों के 	Wet समाप्त तिमा म द लाभ द लाभ देवा शेयर धि शेयर) शेयर) रण बाध्यता और प्रग पि परिणामों का पूप य लेखा मानक (इंख नियम 3 (मारतीय द	ठाडांte: www.ii ही व अर्घवागि रात्रमा ३०.०९-२० 30 अतेखापशीक्ष्ता (अतेख 40, 5,519.85 3, 4,140.05 2, 4,158.61 2, 2,066.78 2, 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 टीकरण आवरयकर म्र प्रारुप अअनुसार द प्रस) क अनुसार द अनुसार द क्रेजुसार द	Image: constraint of the sector of	adia.com, Email IIUरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित (अलेखागरीक्षित) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 3 8,718.38 11,33 7 6,548.17 8,44 3 6,565.25 8,44 3 2,066.78 2,00 1 31.68 4 31.68 5 के विनियम 33 के अंतन rseeindia.com और कंप पंनियों के प्रावधान अधि के साथ धारा 133 अधिनि	: investor@ परिणामों व यार्थिक रामार्थित 9-19 13:03-27 सरीक्षेत्र) (देखायरी दि 99.16 13:6,321.5 11:046. 13:6,321.5 10:6,678 2,066.7 70,956.6 70,956.6 11:00 41:00 41:0 11:00 41:0 11:00 41:0 11:00	insecticide 30-09-20 (अलेखापरीक्षित) (अलेखार्मित) (अलेखार्मित) (अलेखार्मित) (अलेखार्मित) (अलेखार्मित) (अलेखार्मित) (अलेखार्मित) (अलेखार्मित) (अलिखार) (अलिखार) (अ	sindia.co रिामाही की समाप्ति 30-06-20 (अलेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.82 2,436.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति और	m, CIN: L समे। (अलेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 2,066.78 23.72 23.72 23.72 23.72	.65991DL (₹ लाख य कित अर्धव स्राय (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 डी अलेखापरीक्षि ई (''रोबी'') द्वार	1996PLC में, ईपीएस वे गरित 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 सेत स्टॅंडअलोन रा लागू और वि	2083909 वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05			
केजी सोमानी इन्सॉत चौथी मंजिल, आसफ m, फोन : 011-41426 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	PA-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्वेसी प्रोफेशनल्स, प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 2262,011-23277677,9310182010 S262,011-23277677,9310182010 Interpret Second A Government Second Colspan="2">Colspan="2" Colspan="2">Colspan="2" Colspan="2"	 म. म. परिवालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त कर अदायगी के परचात शुद अवधि के दौरान कुल समेंवि पेड-अप इविवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य १10/- प्रति आरक्षित निधि (पूनर्मूल्यन नि के अतिरिक्त) प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य १10/- प्रति आघारभूत मोंट: a) उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीक) वित्तीय परिणामां का सार है। वित्त b) उपरोक्त वित्तीय परिणामा भारती। अनुसार हैं। इंड एस कंपनियों के c) कंपनी ने उन संमावित प्रमावों पर 	Wet समाप्त तिमा म द लाभ त आय शेयर धि शेयर) शेयर) रण बाध्यता और प्रग निय परिणामों का पू य लेखा मानक (इंड नियम 3 (भारतीय द विचार किया है जो	bsite: www.ii ही व अर्घवार्गि स्तम्प १०.09-20 (जतेस्वापरीक्षित) (जतेस 45,584.80 40,5,519.85 3, 4,140.05 2,066.78 2,066.78 2,066.78 2,066.78 2,003 20.	secticidesir कि के अलेख रहे ही की गापित 06-20 06-20 059.89 50,310.4 985.53 6,209.6 108.12 4,880.5 066.74 4,907.5 066.78 2,066.74 2,066.74 2,066.74 11.65 23.66 11.65 23.66 11.65 23.66 11.65 23.66 11.65 23.66 11.65 23.66 11.65 23.66 11.65 23.6 11.05 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.65 23.6 11.05 23.6	adia.com, Email IUQरिक्षित वित्तीय डअलोन उधलोन उधलोग 3 8,718.38 11,33 5 86,544.69 5 86,544.69 5 86,544.69 5 86,544.77 5 8,718.38 11,31 5 8,544.77 5 8,548.17 5 8,656.25 8,44 5 2,066.78 2,06 5 31.68 5 31.	: investor@ परिणामों व वार्षिक रमापि 9-19 13103-21 1303-21 1303-21 1304-21 1304-21 1304-21 1004-21	30-09-20 ज 30-09-20 ज (जनेस्वापरीक्षित) 6 45,584.80 1 5,540.43 4 4,160.63 4 4,178.89 78 2,066.78 33 20.13 33 20.13 33 20.13 33 20.13 34 718.89 78 2,066.78 50 20.13 20.13 20.13 20.13 20.13	sindia.co तिमाही की समाप्ति (जरेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप	m, CIN: L रामे (अलेखापसीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,901.58 4,901.58 4,927.88 2,066.78 2,3.72 23.72 23.72 23.72 23.72 23.72 23.72 23.72 23.72	.65991DL (₹ लाख व कित अर्धव सम (अलेखापशीक्षत) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापशीक्षि र्ड (''सेबी'') द्वाप् ताओं की धारणा	-1996PLC में, ईपीएस वे गरित 30-09-19 (अलेख्यपरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 वेत स्टेंडअलोन रा लागू और दि	2083909 जे अतिरिक्त) वार्षिक समार्पित 31-03-20 (लेखापरीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 42.05			
केजी सोमानी इन्सॉत जीथी मंजिल, आसफ com, फोन : 011-41426 जि जीवजुर में वो हवांच कि जिंदा के प्राप्त हिंहा मिंग्र को परं पुनर्गठन तथा न) नियमावली, 200 त शक्तियों के अनुप स्ताक्षरी उक्त सूचना तेथि तक ब्याज के ा अड़तीस हजार दो ा के लिए ऋणी श्री 2020 को मांग सूचन वद्वारा ऋणी और सन तंयों के अनुपालन में	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} $	 म. म. परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल कर अदायगी के पर्य गुद्ध ल कर अदायगी के पर्य गुद्ध ल अवधि के दौरान कुल समोवि पंड–अप इविवटी शयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आरक्षित निधि (पूनर्मृल्यन नि के अतिरिक्ता) ग्राते शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आधारमूल मिश्रित जपरोक्त अवतरण, सेबी (सूयीक वित्तीय परिणामों का सार है। कि उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारती: अनुसार हैं। इंड एस कंपनियों के कपनी ने उन संभावित प्रमावों पर ने सूचना के आंतरिक और बाहरी अन्य संबंधित कारकों में किसी भी 	Wet रामाप्त तिमा त नाम त नाम त आय शेयर धि शेयर) य परिणामों का पूप य लेखा मानक (इंड नियम 3 (मारतीय द विचार किया डै जो खोत्ती का उपयोग 1 भौतिक परिवर्तन व	bsite: www.ii ही व अर्धवार्गि पा 30-09-20 30 (जलेखपापशित) (जलेख 45,584.80 40, 5,519.85 3, 4,140.05 2, 4,158.61 2, 2,066.78 2, 2,066.78 2, 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03 20.03	secticidesir क के अलेख रदै ही की पापित 06-20 30-09-19 पापित 06-20 30-09-19 पापित (अतेखापशीक्ष 559.89 50,310.4 198.53 6,209.6 108.12 4,880.5 106.64 4,907.5 1066.78 2,066.7i 11.65 23.6 11.65 25.6 11.65 25.6	adia.com, Email IIUरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30-09-20 व)(अलेखापरीक्षित)(अलेखा 5 86,544.69 8 46,10 8 4,10 8 4,10	: investor@ परिणामों व वार्षिक समापित 9-19 31-03-22 परिक्रिल) (देखपरपी8 99.16 136,321.9 31-03-22 11,046. 70,956.0 11.00 41.6 70,956.0 41.00 41.6 11.00 41.6 70,956.1 11.00 41.6 70,956.1 11.00 41.6 70,956.1 11.00 41.6 70,956.1 11.00 41.6 70,956.1 11.00 41.6 70,956.1 11.00 41.6 11	insecticide 30-09-20 () (अलेखापरीक्षित) 6 45,584.80 1 5,540.43 6 4,160.63 1 6 4,160.63 1 6 4,160.63 2 0,13 2 0,14 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1 0,15 1	Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (अलेखापशेक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औ 7 यह एक गतिर पर पड़ सकता	m, CIN: L समे। (अलेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 24.72	.65991DL (ह लाख व कित अर्धन रा 30-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि ई (''रोबी'') द्वाप ताओं की धारणा सित स्थिति है,	-1996PLC में, ईपीएस वे ग ित 30-09-19 (क्षलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 केत स्टेंडअलोन रा लागू और दि ा को दूर करने द प्रबंधन समप्टि-	2083909 ज अतिरिक्त) वार्षिक समापित 31-03-20 (तेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 और समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी -आर्थिक और		E A	
केजी सोमानी इन्सॉत नौथी मंजिल, आसफ m, फोन : 011-41426 7 कि जाजबु से ल ब्रह्म 7 कि जाजबु से ल ब्रह्म 7 कि जाजबु से ल 7 कि ब्रह्म के क्र 1,4023777, E-mail: 1,4023777, E-mail: 1,40237777, E-mail: 1,4023777	2A-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्लेसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, अती रोड, नई दिल्ली – 110002 2262, 011-23277677, 9310182010 Interpret factorial colspan="2">Interpret factorial colspan="2" Interpret factori	क्र. विवरण 1 परिचालन से कुल आय 2 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त 3 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त 4 अवधि के दौरान कुल समेंवि 5 पेड-अप इकिंटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति 6 आरक्षित निषि (पूर्नमूल्यन नि के अतिरिक्त) 7 प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आधारभूत मिश्रित नोट: a) उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीक वेत्तीय परिणामां का सार है। वित्) उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारती. अनुसार है। इंड एस कंपनियों के 0 कंपनी ने उन संभावित प्रमावों पर भ सूचना के आंतरिक और बाइरी अन्य संबंधित कारकों में किली भी 4 अंगरी के 16 डीलरों और वितरव	Wet समाप्त तिमा न व लाम त आय शेयर धि शेयर) शेयर) शेयर) विया परिणामों का पू य लेखा मानक (इंड नियम 3 (भारतीय द विचार किया है जो स्रोत्ते का उपयोग) भोत्ति क परिवर्तन व जे के साथ दो कर्मच	टेकरण आर्थवागि दिम तिम 30-09-20 30 (जतेखापशीक्षता) (अतेव 45,5584.80 40, 45,5584.80 40, 5,519.85 3, 4,140.05 2, 4,158.61 2, 2,066.78 2, 2,066.78 2, 20.03 20.03 20.03 20.03 टीकरएण आवरयकर ग्रेप्सा क ज़नुसार कुप्सा क ज़ियम तेवया श 10 कर्ग नियम, तिवया यरिणामों प तिवाय परिणामों प किया श 10 करा श तेवा श 10 करा श 10 करा श	Image: constraint of the sector of	adia.com, Email IUUरीक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित (अलेखागरीक्षित) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 3 8,718.38 11,33 7 6,548.17 8,44 3 6,565.25 8,43 3 2,066.78 2,00 1 31.68 4 31.68 5 के विनियम 33 के अंतग inseindia.com और कंप पंनियों के प्रावधान अधि के साथ धारा 133 अधिनिधित महामारी से उत्पन्न ार, कोई भी समग्र प्रमाव गंकन करना जारी रखेय	: investor@ परिणामों व वार्षिक स्पमारिंग 9-19 सरीक्षेत्र) (देखायरी हि 99.16 136,321.1 8,604.1 136,321.1 8,604.1 136,627.8 8,604.1 1,046.1 1,046.1 2,066.7 70,956.6 70,956.6 1,046.1 1,00 41.0 41.0 41.0 1,00 1,0	30-09-20 0) 30-09-20 0) (अलेखापशीक्षत) 60 45,584.80 5,540.43 4,160.63 40 4,178.89 2,066.78 2,066.78 33 20.13 33 20.13 33 20.13 14 300 सितम्बर, 1 अभ्य अवर देखते हुए ति पि भारती रित्ते हैं । नहामारी के कारण राह रो प्रबंश न ने इ 1	Sindia.co तिमाही की समाप्ति 30-06-20 (अतेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति और 7 यह एक गतिर स पक्ष सकता स सम्बन्ध में उ	m, CIN: L समे1 (अलेखागरीबित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 2,066.78 23.72 23.72 23.72 23.72 दाखिल तिमाघ र एक्सचेंज बोर थिल और विक है ।	.65991DL (ह लाख य किंत अर्धव स्त्र	-1996PLC में, ईपीएस वे गरित 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और दि 1 को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल	2083909 चार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 और समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और			
केजी सोमानी इन्सॉत बौथी मंजिल, आसफ m, फोन : 011-41426 7 कि Pur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} $	 झ परिचालन से कुल आय परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्य गुद्ध त कर अदायगी के पूर्य गुद्ध त कर अदायगी के पूर्य गुद्ध त अवधि के दोरान कुल समेंवि पेड-अप इविचटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आरक्षित निधि (पूनर्मूल्यन नि के अतिरिक्त) प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आघारमूल निश्चित चेपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीकन वित्तीय परिणाम भारती: अनुसार है। इंड एस कंपनियों के c) कंपनी ने उन संभावित प्रभावों पर ने सूचना के आंतरिक और बाहरी अन्य संबंधित कारकों में किसी भी कंपनी के 16 डीलरों और वितरव जांजगीर जिला-जांजगीर-चांप 	Wet समाप्त तिमा का का का का का का का का का का का का का का का का को का का का का का का का को का	श्रेशि: www.ii ही व अर्धवाि राम ३०.०७.२० ३३ ७३.०७.२० ३३ ७३.०७.२० ३३ ४५.५५४८ ३३ ४५.५५४८ ३५ ४५.५५४८ ३५ ४५.५५४८ ३५ ४५.५५४८ ३५ ४५.५५४८ ३५ ४५.५४८८ ३५ ३५.५४८८ ३५ ३८.०३ ३८ ३८.०३ ३८ ३८.०३ ३८ ३८.०३ ३८ ३८.०३ ३८ ३८.०३ ३८ ३८.०३ ३८ ३८.०३ ३८ ३८.०३ ३८ ३८.०३ ३८ ३८.०३ ३८ ३८.०२ ३८ ३८.०२ ३८ ३८.०२ ३८ ३८.०२ ३८ ३८.०२ ३८ ३८.०२ ३८ ३८.०२ ३८ ३८.०२ ३८ <td< td=""><td>Image: constraint of the sector of</td><td>dia.com, Email IUQरिक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित (अलेखापरीक्षित्त) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 3 8,718.38 11,33 5 86,554.25 8,44 3 6,548.17 8,47 0 6,565.25 8,44 8 2,066.78 2,06 1 31.68 1 31.68 1 31.68 4 31.68 4 31.68 4 31.68 5 के विनियम 33 के अंतन 1 31.68 4 31.68 5 के विनियम 133 अधित कर पंजियों के प्रावधान अधि क साधारापा 133 अधिति धित महामारी से उत्पन्न 17, कोई भी समग्र प्रभाव यांकन करना जारी रखेग असाधारण आइटम इसमें-अलग ग्राहकों को कम</td><td>: investor@ परिणामों व वार्षिक समापि 9-19 1316321. 32.02 11,046. 8,664. 70,956. 41.00 41.0</td><td>अग्र का secticide 30-09-20 (आर्नेस्वापरीक्षित) 6 45,584.80 5,540.43 6 4,160.63 0 30 41,78.89 2,066.78 8 2,066.78 9 33 20.13 30 14 70 17 30 18 20.13 21.14 21.15 22.13 23.20.13 <td< td=""><td>sindia.co तिमाही की समाप्ति 30-06-20 (जलेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,436.42 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औ र यह एक गति पर पड़ सकता र सस्वस्थ में उ हालाँकि, कंप-</td><td>m, CIN: L समे1 (अलेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,901.58 4,901.58 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तिमाह र एक्सचेंज बोग धिंक अनिष्टिचत शीत और विक है । क्व दीलरों और</td><td>.65991DL (ह लाख प कित अर्धव सम (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि र्ड (''सेबी'') द्वार नाओं की धारणा सित रिथति है, र वितरकों के ना</td><td>-1996PLC में, ईपीएस वे गरित 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 सेत स्टैंडअलोन रा लागू और दि ा को दूर करने द प्रबंधन समप्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान र</td><td>दार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 अौर समेकित तेशानिर्देशों के के लिए कंपनी -आर्थिक और नाई, 2020 को उठाए गए थे ।</td><td></td><td></td><td></td></td<></td></td<>	Image: constraint of the sector of	dia.com, Email IUQरिक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित (अलेखापरीक्षित्त) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 3 8,718.38 11,33 5 86,554.25 8,44 3 6,548.17 8,47 0 6,565.25 8,44 8 2,066.78 2,06 1 31.68 1 31.68 1 31.68 4 31.68 4 31.68 4 31.68 5 के विनियम 33 के अंतन 1 31.68 4 31.68 5 के विनियम 133 अधित कर पंजियों के प्रावधान अधि क साधारापा 133 अधिति धित महामारी से उत्पन्न 17, कोई भी समग्र प्रभाव यांकन करना जारी रखेग असाधारण आइटम इसमें-अलग ग्राहकों को कम	: investor@ परिणामों व वार्षिक समापि 9-19 1316321. 32.02 11,046. 8,664. 70,956. 41.00 41.0	अग्र का secticide 30-09-20 (आर्नेस्वापरीक्षित) 6 45,584.80 5,540.43 6 4,160.63 0 30 41,78.89 2,066.78 8 2,066.78 9 33 20.13 30 14 70 17 30 18 20.13 21.14 21.15 22.13 23.20.13 <td< td=""><td>sindia.co तिमाही की समाप्ति 30-06-20 (जलेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,436.42 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औ र यह एक गति पर पड़ सकता र सस्वस्थ में उ हालाँकि, कंप-</td><td>m, CIN: L समे1 (अलेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,901.58 4,901.58 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तिमाह र एक्सचेंज बोग धिंक अनिष्टिचत शीत और विक है । क्व दीलरों और</td><td>.65991DL (ह लाख प कित अर्धव सम (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि र्ड (''सेबी'') द्वार नाओं की धारणा सित रिथति है, र वितरकों के ना</td><td>-1996PLC में, ईपीएस वे गरित 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 सेत स्टैंडअलोन रा लागू और दि ा को दूर करने द प्रबंधन समप्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान र</td><td>दार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 अौर समेकित तेशानिर्देशों के के लिए कंपनी -आर्थिक और नाई, 2020 को उठाए गए थे ।</td><td></td><td></td><td></td></td<>	sindia.co तिमाही की समाप्ति 30-06-20 (जलेखापरीक्षित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,436.42 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औ र यह एक गति पर पड़ सकता र सस्वस्थ में उ हालाँकि, कंप-	m, CIN: L समे1 (अलेखापरीक्षित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,901.58 4,901.58 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तिमाह र एक्सचेंज बोग धिंक अनिष्टिचत शीत और विक है । क्व दीलरों और	.65991DL (ह लाख प कित अर्धव सम (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि र्ड (''सेबी'') द्वार नाओं की धारणा सित रिथति है, र वितरकों के ना	-1996PLC में, ईपीएस वे गरित 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 सेत स्टैंडअलोन रा लागू और दि ा को दूर करने द प्रबंधन समप्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान र	दार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 अौर समेकित तेशानिर्देशों के के लिए कंपनी -आर्थिक और नाई, 2020 को उठाए गए थे ।			
केजी सोमानी इन्सॉत 15, नौथी मंजिल, आसफ 16, नौथी मंजिल, आसफ 16, नौथी मंजिल, आसफ 16, नेव्यमाद के का 17, के के का 18, के के के के के के के कि 19, के कि के के कि 19, 2020 को मांग सूचन रने के लिए ऋणी औ 16, 2020 को मांग सूचन रने के लिए ऋणी औ 17, 2020 को मांग सूचन रने के लिए ऋणी औ 10, 2020 को मांग सूचन रने के लिए ऋणी औ 10, 2020 को मांग स्वान रने के लिए ऋणी औ 10, 2020 को मांग स्वान रने के लिए ऋणी औ 10, 2020 को मांग स्वान 10,	24-001/IP-P00300/2017-18/10544 ल्वेसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 5262,011-23277677,9310182010 Glife52001:::::::::::::::::::::::::::::::::::	क्र. विवरण 1 परिचालन से कुल आय 2 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त 3 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त 4 अवधि के दौरान कुल समेंवि 5 पेड-अप इकिंटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति 6 आरक्षित निषि (पूर्नमूल्यन नि के अतिरिक्त) 7 प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आधारभूत मिश्रित नोट: a) उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीक वेत्तीय परिणामां का सार है। वित्) उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारती. अनुसार है। इंड एस कंपनियों के 0 कंपनी ने उन संभावित प्रमावों पर भ सूचना के आंतरिक और बाइरी अन्य संबंधित कारकों में किली भी 4 अंगरी के 16 डीलरों और वितरव	Wet समाप्त तिमा माम द लाभ ज्व आय शेयर धि शेयर) शेयर) रण बाध्यता और प्रग विचार किया है जो स्रोत्तों का उपयोग 1 भौतिक परिवर्तन व ों के साथ दो कर्मच ा, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	site: www.ii	Image: constraint of the sector of	dia.com, Email IUररिक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30-09-20 30-0 (अलेखाररीक्षित) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 8 8,718.38 81,133 7 6,548.17 8,4 9 6,566.25 8,43 8 2,066.78 2,06 1 31.68 4 1 31	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति 9-19 31-03-2(ग्रीक्षित) (लेखापगीह 99.16 136,321,32 11,046. 136,321,8 8,604,4 8,18 8,383,4 8,604,4 13,627,8 70,956,6 70,956,6 70,956,6 11,00 41,6 11,00 41,00 41,00 11,00 41,0	30-09-20 (a) 30-09-20 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (a) (b) (a) <td< td=""><td>Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता</td><td> समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी </td><td>.65991DL (ह लाख य कित अर्घव सम 30-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 डी अलेखापरीक्षि डी अलेखापरीक्षि डी अलेखापरीक्षि र ('सेबी'') द्वाप सित स्थिति है, र वेतनरकों के ना कंपनी ने 30 ज्</td><td>-1996PLC में, ईपीएस बे गिरा 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 सेत स्टॅंडअलोन रा लागू और दि ा को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान र न, 2020 को स</td><td>2083909 वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापपीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 11,133.36 11,133.36 11,133.36 11,133.36 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 3और समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और मार्ड, 2020 को उडाए गए थे । ममाप्त तिमाही</td><td></td><td>राई त</td><td><mark>d p</mark></td></td<>	Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता	 समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी 	.65991DL (ह लाख य कित अर्घव सम 30-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 डी अलेखापरीक्षि डी अलेखापरीक्षि डी अलेखापरीक्षि र ('सेबी'') द्वाप सित स्थिति है, र वेतनरकों के ना कंपनी ने 30 ज्	-1996PLC में, ईपीएस बे गिरा 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 सेत स्टॅंडअलोन रा लागू और दि ा को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान र न, 2020 को स	2083909 वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापपीक्षित्र) 136,321.96 11,133.36 11,133.36 11,133.36 11,133.36 11,133.36 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 3और समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और मार्ड, 2020 को उडाए गए थे । ममाप्त तिमाही		राई त	<mark>d p</mark>
केजी सोमानी इन्सॉत /15, वौथी मंजिल, आसफ nail.com, फोन : 011-41426 चेंटन कि मांग साम होंटन कि मांग साम होंटन कि मांग मांग होंटन के लिए संगी भी तिथि तक ब्याज के लाख अड़तीस हजार दो करने के लिए ऋणी भी ार्च, 2020 को मांग सूचना ही तिथि तक ब्याज के लाख अड़तीस हजार दो करने के लिए ऋणी भी रार्च, 2020 को मांग सूचन हो तिथि तक ब्याज के लाख अड़तीस हजार दो के स्था के नियम 9 के साथ शक्तियों के अनुपालन में रावितयों के अनुपालन में रावितयों के अनुपालन में रावितयों के आनुपालन में रावत वो सी सँतालीस अ के प्रभार का विषय होगा।	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} $	 म. म. परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त कर अदायगी के परचात शुद अवधि के दौरान कुल समेंवि पेड-अप इविवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आरक्षित निधि (पूनर्मूल्यन नि के अतिरिका) प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आधारभूत मिश्रित चेरा वत्तीय परिणाम सारती: अधारभूत वित्तीय परिणाम सारती: अनुसार हैं। इंड एस कंपनियों के त्रेपनी ने उन संमादित प्रमावों पर ने सूचना के आंतरिक और बाहरी अन्य संबंधित कारकों में किसी भी कंपनी के 16 डीलरों और वितरव जांजगीर जिलाजांजगीर-चांप धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि 	Wet समाप्त तिमा माम द लाभ ज्व आय शेयर धि शेयर) शेयर) रण बाध्यता और प्रग विचार किया है जो स्रोत्तों का उपयोग 1 भौतिक परिवर्तन व ों के साथ दो कर्मच ा, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	site: www.ii	Image: constraint of the sector of	dia.com, Email IUररिक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30-09-20 30-0 (अलेखाररीक्षित) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 8 8,718.38 81,133 7 6,548.17 8,4 9 6,566.25 8,43 8 2,066.78 2,06 1 31.68 4 1 31	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति 9-19 31-03-2(ग्रीक्षित) (लेखापगीह 99.16 136,321,32 11,046. 136,321,8 8,604,4 8,18 8,383,4 8,604,4 13,627,8 70,956,6 70,956,6 70,956,6 11,00 41,6 11,00 41,00 41,00 11,00 41,0	30-09-20 (a) 30-09-20 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (a) (b) (a) <td< td=""><td>Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता</td><td> समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी </td><td>.65991DL (ह लाख य कित अर्धव सम 30-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 87,67.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि ई (''रोबी'') द्वाप सि स्थिति है, र वितरकों के ना देनदारों के ना कंपनी ने 30 जू ति, लाम एवं ह</td><td>-1996PLC में, ईपीएस के गिरत 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और वि त को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान २ (न, 2020 को स</td><td>2083909 वार्षिक समापित 31-03-20 (तेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 42.05 3ौर समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और नाई, 2020 को उठाए गए थे। नमाप्त तिमाही ता की स्थिति</td><td></td><td>राई त किंद्म</td><td><mark>(</mark></td></td<>	Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता	 समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी 	.65991DL (ह लाख य कित अर्धव सम 30-09-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 87,67.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि ई (''रोबी'') द्वाप सि स्थिति है, र वितरकों के ना देनदारों के ना कंपनी ने 30 जू ति, लाम एवं ह	-1996PLC में, ईपीएस के गिरत 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और वि त को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान २ (न, 2020 को स	2083909 वार्षिक समापित 31-03-20 (तेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 42.05 3ौर समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और नाई, 2020 को उठाए गए थे। नमाप्त तिमाही ता की स्थिति		राई त किंद्म	<mark>(</mark>
केजी सोमानी इन्सॉट / 15, चौथी मंजिल, आसफ mail.com, फोन : 011-41426 • जिल्ल के क्रांग के के क्रांग के का का मान के कि क्रांग मान के का के का का प्रवर्तन) नियमावली, 200 प्रवर्तन) नियमावली, 200 प्रवर्तन शक्तियों के अनुप अधोहस्ताक्षरी उक्त स्वाज के तोम सिंह तेकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रवर्तन, नियमावली, 200 प्रवर्तन, नियमावली, 200 प्रवर्तन, विचि तक ख्याज के तकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रवर्तन, नियमावली, 200 प्रवर्तन, नियमावली, 200 प्रवर्तन, नियमावली, 200 प्रवर्तन, नियमावली, 200 प्रवर्तन, विचि तक ख्याज के ते के लिए ऋणी औ सार्च, 2020 को मांग सूचन हे, एतवद्वारा ऋणी और सा नियमों के नियम 9 के साध हावाद यो सा सेतालीस के के प्रसार का विषय होगा। मंगटर बियरिंग फलेट न.	p_{4} .001/IP-P00300/2017-18/10544 crift Jubyarnery, Jugac Entropy s and vis, $-rst$ faced) – 110002 2262 , 011-23277677, 9310182010 njab & Sind Bank (A Govt. of India Undertaking) of life 2500 1200 1100 111 112 112 116 117 116 117 117 118 119 111 111 111 112 111 <	म. विवरण 1 परिवालन से कुल आय 2 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के पर्व शुद्ध ल 4 अवधि के दौरान कुल समोवि 5 पेड–अप इकिवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति 6 आरक्षित निधि (पूनर्म्लयन नि के अतिरिक्ता) 7 प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आधारमूत मिश्रित नोट: a) उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीक मुद्या सेवाय परिणामा का सार है। कि b) उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारती: अनुसार हैं। इंड एस कंपनियों के c) कंपनी ने उन संभावित प्रभवों पर ते सूचना के आंतरिक और बाहरी अन्य संबंधित कारकों में किसी भी d) कंपनी के 16 डीलरों और वितरव जांजगीर जिला–जांजगीर–चांप धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि में INR 1,000 लाख का प्रावधा-	Wet समाप्त तिमा माम द लाभ ज्व आय शेयर धि शेयर) शेयर) रण बाध्यता और प्रग विचार किया है जो स्रोत्तों का उपयोग 1 भौतिक परिवर्तन व ों के साथ दो कर्मच ा, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	site: www.ii	Insecticidesin क के अलेख रदे की की तापित 06-20 30-09-19 गमरविता) (अलेखागरीबि 059.89 50,310.4 98.53 6,209.6 006.64 4,907.5 016.64 4,907.5 026.78 2,066.7 11.65 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 20.1 12.0 3/1 13.0 10.0 14.0 10.1 13.0 10.0 13.0 10.0 14.0 10.0	dia.com, Email IUररिक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30-09-20 30-0 (अलेखाररीक्षित) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 8 8,718.38 81,133 7 6,548.17 8,4 9 6,566.25 8,43 8 2,066.78 2,06 1 31.68 4 1 31	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति 9-19 31-03-2(ग्रीक्षित) (लेखापगीह 99.16 136,321,32 11,046. 136,321,8 8,604,4 8,18 8,383,4 8,604,4 13,627,8 70,956,6 70,956,6 70,956,6 11,00 41,6 11,00 41,00 41,00 11,00 41,0	30-09-20 (a) 30-09-20 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (a) (b) (a) <td< td=""><td>Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता</td><td> समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी </td><td>.65991DL (ह लाख व कित अर्धव स्वापरीक्षित) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि र्ड (''सेबी'') द्वार स्वीतरकों के नि देनदारों के नाग रंपनी ने 30 जू गति, लाम एवं इ</td><td>-1996PLC में, ईपीएस के गिरत 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और दि 1 को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान र न, 2020 को स् डानि और तरल</td><td>2083909 च अतिरिक्त) वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 42.05 और समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और माम्पत तिमाही ता की स्थिति</td><td></td><td>राई त</td><td><mark>(</mark></td></td<>	Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता	 समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी 	.65991DL (ह लाख व कित अर्धव स्वापरीक्षित) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि र्ड (''सेबी'') द्वार स्वीतरकों के नि देनदारों के नाग रंपनी ने 30 जू गति, लाम एवं इ	-1996PLC में, ईपीएस के गिरत 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और दि 1 को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान र न, 2020 को स् डानि और तरल	2083909 च अतिरिक्त) वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 42.05 और समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और माम्पत तिमाही ता की स्थिति		राई त	<mark>(</mark>
कंजी सोमानी इन्सॉत 3/15, चौथी मंजिल, आसफ gnail.com, फोन : 011-41426 रेटेंक्न कि नियान के म्हान केंक्न कि म्हान के म्हान केंक्न कि म्हान के म्हान केंक्न प्रायत के मान दिकरण एवं पुनर्गठन तथा (प्रवर्तन) नियमावली, 200 1) प्रदत्त शक्तिस हजार दो तिकरण एवं पुनर्गठन तथा (प्रवर्तन) नियमावली, 200 1) प्रदत्त शक्ति के अनुप अधोहस्ताक्षरी उक्त सूचना की तिथि तक व्याज के 5 लाख अड़तीस हजार दो 1 करने के लिए ऋणी औ मार्च, 2020 को मांग सूचन हे, एतदद्वारा ऋणी और स- नियमों के नियम 9 के साध त शक्तियों के अनुपालन में व्या है विशेष रूप से ऋप न–देन न करने की वेतावर्न भावी ब्याज व आकस्मिक इ 1 हजार दो सौ सैंतालीस अं 5 के प्रमार का विषय होगा। 1 मीटर बियरिंग फलैट न. 85, पश्चि	24-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्लेसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 3262, 011-23277677, 9310182010 of life250001:m0169@psb.co.inदिनांक : 06 नवम्बर, 2020प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,20 के नियम 9 के साथ पठितIतनन में पंजाब एंड सिंध बैंक के1 की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनोंसाथ सूचना में वर्णित राशि रु.सौ सँतालीस और पैसे छियत्तरसुमित कुमार पुत्र ओम सिंह को11 जारी की थी। ऋणी राशि कार्वसाधारण को सूचित किया जाता24 पठित उक्त अधिनियम की धारा1 बझा रदर और संपत्ति क साथ20 व जात्तर और संपत्ति क साथ21 वजाती है और संपत्ति के साथ21 जाती ही और संपत्ति के साथ21 जाती ही और संपत्ति के साथ21 के सभी माग व पार्सल	म. विवरण 1 परिवालन से कुल आय 2 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के पर्व शुद्ध ल 4 अवधि के दौरान कुल समोवि 5 पेड–अप इकिवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति 6 आरक्षित निधि (पूनर्म्लयन नि के अतिरिक्ता) 7 प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आधारमूत मिश्रित नोट: a) उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीक मुद्या सेवाय परिणामा का सार है। कि b) उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारती: अनुसार हैं। इंड एस कंपनियों के c) कंपनी ने उन संभावित प्रभवों पर ते सूचना के आंतरिक और बाहरी अन्य संबंधित कारकों में किसी भी d) कंपनी के 16 डीलरों और वितरव जांजगीर जिला–जांजगीर–चांप धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि में INR 1,000 लाख का प्रावधा-	Wet समाप्त तिमा माम द लाभ ज्व आय शेयर धि शेयर) शेयर) रण बाध्यता और प्रग विचार किया है जो स्रोत्तों का उपयोग 1 भौतिक परिवर्तन व ों के साथ दो कर्मच ा, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	site: www.ii	Insecticidesin क के अलेख रदे की की तापित 06-20 30-09-19 गमरविता) (अलेखागरीबि 059.89 50,310.4 98.53 6,209.6 006.64 4,907.5 016.64 4,907.5 026.78 2,066.7 11.65 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 20.1 12.0 3/1 13.0 10.0 14.0 10.1 13.0 10.0 13.0 10.0 14.0 10.0	dia.com, Email IUररिक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30-09-20 30-0 (अलेखाररीक्षित) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 8 8,718.38 81,133 7 6,548.17 8,4 9 6,566.25 8,43 8 2,066.78 2,06 1 31.68 4 1 31	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति 9-19 31-03-2(ग्रीक्षित) (लेखापगीह 99.16 136,321,32 11,046. 136,321,8 8,604,4 8,18 8,383,4 8,604,4 13,627,8 70,956,6 70,956,6 70,956,6 11,00 41,6 11,00 41,00 41,00 11,00 41,0	30-09-20 (a) 30-09-20 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (a) (b) (a) <td< td=""><td>Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता</td><td> समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी </td><td>.65991DL (ह लाख व कित अर्धव स्वापरीक्षित) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि र्ड (''सेबी'') द्वार स्वीतरकों के नि देनदारों के नाग रंपनी ने 30 जू गति, लाम एवं इ</td><td>-1996PLC में, ईपीएस के गिरत 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और वि त को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान २ (न, 2020 को स</td><td>2083909 च अतिरिक्त) वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 42.05 और समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और माम्पत तिमाही ता की स्थिति</td><td></td><td>राई त टुक<u>दम</u> हम कद</td><td>क म</td></td<>	Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता	 समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी 	.65991DL (ह लाख व कित अर्धव स्वापरीक्षित) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि र्ड (''सेबी'') द्वार स्वीतरकों के नि देनदारों के नाग रंपनी ने 30 जू गति, लाम एवं इ	-1996PLC में, ईपीएस के गिरत 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और वि त को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान २ (न, 2020 को स	2083909 च अतिरिक्त) वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 42.05 और समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और माम्पत तिमाही ता की स्थिति		राई त टुक <u>दम</u> हम कद	क म
केजी सोमानी इन्सॉत 3/15, चौथी मंजिल, आसफ gmail.com, फोन : 011-41426 पहेंदन कि मिलन मिलट service is a way fl. के मम, मेरठ, मेरठ2 2056071,4023777, E-mail: प्रवर्तन) नियमावली, 200 त प्रवर्तन) नियमावली, 200 त प्रवर्तन) नियमावली, 200 त प्रवर्तन) नियमावली, 200 त प्रवर्त शक्तियों के अनुप अधोहस्ताक्षरी उक्त सूचना की तिथि तक व्याज के 5 लाख अड़तीस हजार दो 1 करने के लिए ऋणी औ त पार्च, एतदद्वारा ऋणी और सन विया है। विशेष रूप से ऋण त शक्तियों के अनुपालन में त शक्तियों के अनुपालन में त शक्तियों के अनुपालन में त स्वित्यों के अनुपालन में विया है। विशेष रूप से ऋणि त शक्तियों के अनुपालन में त शक्तियों के अनुपालन में त सावी ब्याज व आकस्मिक इ म हजार दो सौ सैंतालिस अ 5 के प्रमार का विषय होगा। र्ग मीट र बियरिंग फलैट न. मा रोड, मेरठ, उ.प्र. 250001 त्रार : फॉट न. 85, पश्चि	24-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्लेसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 3262, 011-23277677, 9310182010 of life250001:m0169@psb.co.inदिनांक : 06 नवम्बर, 2020प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,20 के नियम 9 के साथ पठितIतनन में पंजाब एंड सिंध बैंक के1 की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनोंसाथ सूचना में वर्णित राशि रु.सौ सँतालीस और पैसे छियत्तरसुमित कुमार पुत्र ओम सिंह को11 जारी की थी। ऋणी राशि कार्वसाधारण को सूचित किया जाता24 पठित उक्त अधिनियम की धारा1 बझा रदर और संपत्ति क साथ20 व जात्तर और संपत्ति क साथ21 वजाती है और संपत्ति के साथ21 जाती ही और संपत्ति के साथ21 जाती ही और संपत्ति के साथ21 के सभी माग व पार्सल	 झ., विवरण भ., परिचालन से कुल आय कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त कर अदायगी के पूर्व शुद्ध त अवधि के दौरान कुल समेवि पेड-अप इविवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आरक्षित निधि (पूनर्मूल्य-त्ति आरक्षित निधि (पूनर्मूल्य-त्ति जपरोत्तत निधि (पूनर्यूल्य-त्ति/ वेत्तीरवत्ते) गोटः व) उपरोत्तत अवतरण, सेबी (सूवीक- वेत्तीय परिणामां का सार है। वित्त उपरोत्तत वित्तीय परिणाम भारती: अनुसार है। इंड एस कंपनियों के कंपनी ने उन संभावित प्रमावों पर ने सूवना के आंतरिक और बाहररी अन्य संबंधित कारकों में किसी भी कंपनी के 16 डीलरों और वितरव जांजगीर जिला–जांजगीर–चांप धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि में INR 1.000 लाख का प्रावधान- पर नहीं है। 	Wet समाप्त तिमा माम द लाभ ज्व आय शेयर धि शेयर) शेयर) रण बाध्यता और प्रग विचार किया है जो स्रोत्तों का उपयोग 1 भौतिक परिवर्तन व ों के साथ दो कर्मच ा, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	site: www.ii	Insecticidesin क के अलेख रदे की की तापित 06-20 30-09-19 गमरविता) (अलेखागरीबि 059.89 50,310.4 98.53 6,209.6 006.64 4,907.5 016.64 4,907.5 026.78 2,066.7 11.65 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 20.1 12.0 3/1 13.0 10.0 14.0 10.1 13.0 10.0 13.0 10.0 14.0 10.0	dia.com, Email IUररिक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30-09-20 30-0 (अलेखाररीक्षित) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 8 8,718.38 81,133 7 6,548.17 8,4 9 6,566.25 8,43 8 2,066.78 2,06 1 31.68 4 1 31	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति 9-19 31-03-2(ग्रीक्षित) (लेखापगीह 99.16 136,321,32 11,046. 136,321,8 8,604,4 8,18 8,383,4 8,604,4 13,627,8 70,956,6 70,956,6 70,956,6 11,00 41,6 11,00 41,00 41,00 11,00 41,0	30-09-20 (a) 30-09-20 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (a) (b) (a) <td< td=""><td>Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता</td><td> समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी </td><td>.65991DL (ह लाख व कित अर्धन रा अ.9-9-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि ई ('सेबी') द्वाप ताओं की धारणा सित स्थिति है, र वित्तरकों के नि वेनदारों के ना फंपनी ने 30 जू वति, लाम एवं ह निदेशक इन्सोक्टिस</td><td>-1996PLC में, ईपीएस वे गिरत 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और वि ा को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान र त, 2020 को स् डानि और तरल मण्डल के आ गइड्स (इंडिय- ह– राजेश अग्रवा</td><td>2083909 वार्षिक समापित 31-03-20 (तेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 71,106.08</td><td></td><td>टाई त टुकदुम टुम करते है 11 समाधान</td><td>ि) म रं प्रयास से बढ़ाते</td></td<>	Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता	 समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी 	.65991DL (ह लाख व कित अर्धन रा अ.9-9-20 (अलेखापरीक्षित)) 86,544.69 8,767.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि ई ('सेबी') द्वाप ताओं की धारणा सित स्थिति है, र वित्तरकों के नि वेनदारों के ना फंपनी ने 30 जू वति, लाम एवं ह निदेशक इन्सोक्टिस	-1996PLC में, ईपीएस वे गिरत 30-09-19 (अलेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और वि ा को दूर करने व प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल म पर चालान र त, 2020 को स् डानि और तरल मण्डल के आ गइड्स (इंडिय- ह– राजेश अग्रवा	2083909 वार्षिक समापित 31-03-20 (तेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 71,106.08		टाई त टुकदुम टुम करते है 11 समाधान	ि) म रं प्रयास से बढ़ाते
केजी सोमानी इन्सॉर पताः 3 / 15, चौथी मंजिल, आसफ vance@gmail.com, फोन : 011-41426 वर्ध की ब्लंकार ने बो इडांग	24-001/IP-P00300/2017-18/10544 त्लेसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड, अली रोड, नई दिल्ली – 110002 3262, 011-23277677, 9310182010 of life250001:m0169@psb.co.inदिनांक : 06 नवम्बर, 2020प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,20 के नियम 9 के साथ पठितIतनन में पंजाब एंड सिंध बैंक के1 की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनोंसाथ सूचना में वर्णित राशि रु.सौ सँतालीस और पैसे छियत्तरसुमित कुमार पुत्र ओम सिंह को11 जारी की थी। ऋणी राशि कार्वसाधारण को सूचित किया जाता24 पठित उक्त अधिनियम की धारा1 बझा रदर और संपत्ति क साथ20 व जात्तर और संपत्ति क साथ21 वजाती है और संपत्ति के साथ21 जाती ही और संपत्ति के साथ21 जाती ही और संपत्ति के साथ21 के सभी माग व पार्सल	म. विवरण 1 परिवालन से कुल आय 2 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के पूर्व शुद्ध ल 3 कर अदायगी के पर्व शुद्ध ल 4 अवधि के दौरान कुल समोवि 5 पेड–अप इकिवटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति 6 आरक्षित निधि (पूनर्म्लयन नि के अतिरिक्ता) 7 प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य र10/- प्रति आधारमूत मिश्रित नोट: a) उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीक मुद्या सेवाय परिणामा का सार है। कि b) उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारती: अनुसार हैं। इंड एस कंपनियों के c) कंपनी ने उन संभावित प्रभवों पर ते सूचना के आंतरिक और बाहरी अन्य संबंधित कारकों में किसी भी d) कंपनी के 16 डीलरों और वितरव जांजगीर जिला–जांजगीर–चांप धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि में INR 1,000 लाख का प्रावधा-	Wet समाप्त तिमा माम द लाभ ज्व आय शेयर धि शेयर) शेयर) रण बाध्यता और प्रग विचार किया है जो स्रोत्तों का उपयोग 1 भौतिक परिवर्तन व ों के साथ दो कर्मच ा, छत्तीसगढ़ में एफ INR 2,000 लाख व	site: www.ii	Insecticidesin क के अलेख रदे की की तापित 06-20 30-09-19 गमरविता) (अलेखागरीबि 059.89 50,310.4 98.53 6,209.6 006.64 4,907.5 016.64 4,907.5 026.78 2,066.7 11.65 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 23.6 11.05 20.1 12.0 3/1 13.0 10.0 14.0 10.1 13.0 10.0 13.0 10.0 14.0 10.0	dia.com, Email IUररिक्षित वित्तीय डअलोन अर्धवार्षिक समापित 30-09-20 30-0 (अलेखाररीक्षित) (अलेखा 5 86,544.69 86,11 8 8,718.38 81,133 7 6,548.17 8,4 9 6,566.25 8,43 8 2,066.78 2,06 1 31.68 4 1 31	: investor@ परिणामों व वार्षिक समाप्ति 9-19 31-03-2(ग्रीक्षित) (लेखापगीह 99.16 136,321,32 11,046. 136,321,8 8,604,4 8,18 8,383,4 8,604,4 13,627,8 70,956,6 70,956,6 70,956,6 11,00 41,6 11,00 41,00 41,00 11,00 41,0	30-09-20 (a) 30-09-20 (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (b) (b) (b) (a) (b) (a) <td< td=""><td>Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता</td><td> समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी </td><td>.65991DL (ह लाख य किंत अर्धव (सलेखापरीक्षित)) 86,544.69 87,67.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि ई (''सेबी'') द्वार स्ताओं की धारणा सित स्थिती है, र वितरकों के नि देनदारों के ना कंपनी ने 30 जू गति, लाम एवं इ निदेशक इन्सेकिटस ('</td><td>1996PLC में, ईपीएस के तिति 30-09-19 (क्षत्रेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और दि य प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल् म पर चालान 2 छान और तरल ह –</td><td>2083909 वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 42.05 42.05 42.05 3और समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और ताई, 2020 को उठाए गए थे। ममाप्त तिमाही ता की स्थिति ादेशानुसार ग) लिमिटेड ल) क</td><td></td><td>सई त टुकद<u>म</u> टुम कृव हम करते है</td><td>ि म ं प्रयास से बढ़ा</td></td<>	Sindia.co तिमाही की समापित 30-06-20 (खलेखापरीवित) 40,959.89 3,226.82 2,436.41 2,434.62 2,066.78 11.79 11.79 11.79 2020 के अंत में sindia.com प य प्रतिभूति औप 5 यह एक गतिप पर पड़ सकता स सार्व्याफ, कंपर्न या जा सकता	 समे1 अग्-09-19 (अन्वेचापभीवित) 50,310.45 6,230.69 4,901.58 4,927.88 2,066.78 23.72 23.72 23.72 दाखिल तीमाह र उपलब्ध है। र एक्सचेंज बोग थिंक अनिष्टिवद शील और विका है। क्ष शिक्ष्त जी 	.65991DL (ह लाख य किंत अर्धव (सलेखापरीक्षित)) 86,544.69 87,67.25 6,597.04 6,613.51 2,066.78 31.92 31.92 ही अलेखापरीक्षि ई (''सेबी'') द्वार स्ताओं की धारणा सित स्थिती है, र वितरकों के नि देनदारों के ना कंपनी ने 30 जू गति, लाम एवं इ निदेशक इन्सेकिटस ('	1996PLC में, ईपीएस के तिति 30-09-19 (क्षत्रेखापरीक्षित) 86,169.16 11,399.60 8,512.30 8,474.55 2,066.78 41.19 41.19 सेत स्टेंडअलोन रा लागू और दि य प्रबंधन समष्टि- खेलाफ 04 जुल् म पर चालान 2 छान और तरल ह –	2083909 वार्षिक समापित 31-03-20 (लेखापरीक्षित) 136,321.96 11,133.36 8,691.31 8,467.46 2,066.78 71,106.08 42.05 42.05 42.05 42.05 42.05 42.05 3और समेकित देशानिर्देशों के के लिए कंपनी –आर्थिक और ताई, 2020 को उठाए गए थे। ममाप्त तिमाही ता की स्थिति ादेशानुसार ग) लिमिटेड ल) क		सई त टुकद <u>म</u> टुम कृव हम करते है	ि म ं प्रयास से बढ़ा